सूफ़ी कवी

सचल सरमस्त जी कविता



देवनागरीकरण ऐं संपादन

लछमण परसराम हर्दवाणी

सूफ़ी कवी

सचल सरमस्त जी कविता



देवनागरीकरण ऐं संपादन

प्रो. लछमण परसराम हर्दवाणी

सचल सरमस्त जी कविता

देवनागरीकरण, संपादन ऐं प्रकाशक : लछ्मण परसराम हर्दवाणी
'कविता', प्रोफ़ेसर कॉलोनी,
सावेड़ी, अहमदनगर – ४१४००३ (महाराष्ट्र)
ई–मेल : lphardwani@yahoo.com
मो. ०९८९०६ ९३९३१

छापो पहिरियों : २००९

कवरपेज, बॅक कवरपेज सजावट : लछ्मण हर्दवाणी ऐं श्री. समीर कुलकर्णी

टाईपसेटिंग ऐं लेआऊट : श्री. पद्माकर कुलकर्णी ऐं समीर कुलकर्णी
अहमदनगर – ४१४००१
(२४१) २३४६४३६

रेखाचित्र : सौजन्य : श्री. दिलीप शहापुरकर, श्री. श्रीधर अंभोरे,
श्री. संतोष तांदळे, सुभाष डाके,
संदीप राशिनकर वग़ेरह

मुद्रक : ममता ऑफसेट, अहमदनगर.

मुल्हु : रु. १००/-

सिलसिलो

मुहागु	स्वामी भगत प्रकाश महाराज	I
ब्रु अखर	प्रो. लछमण हर्दवाणी	III
सचल सरमस्तु	प्रो. लछमण हर्दवाणी	V

(अ) काफ़ियूं

१ अखिड़ियुनि इसरारु १
२ अखियां खोल त २
३ अजु की सुबुह अचनि था ३
४ अजु जो जोगी आयो ४
५ अजु होतनि रीअ ५
६ अड़े अलो अलो ६
७ अदब नालि अलेसां ७
८ अदियूं उहे अजु आया ८
९ अव्हीं पंहिंजो पाण आहियो ९
१० अव्हीं सभेई छो न ज्ञाणो १०
११ असीं आहियूं ! ११
१२ असीं पाण खूं ब्रयासीं १२
१३ असुलु असांजड़ो आहे १३
१४ आउ कांगा १४
१५ आउ ब्रारोचल ब्रेली १५
१६ आउ वेड़हे तूं ता बसु १६
१७ आउं कोड़े थियां क़ुरबानु १७
१८ आउं ता तुंहिंजड़ी आहियां १८
१९ आउं पुन्हू पाण आहियां १९
२० आखो ड़े आउं केरु आहियां २०
२१ आपे शाहु आपे गदाउ २१
२२ आयो मुंहिंजे घरि यारु २२
२३ आशिक़ु कीतुइ उदासी २३
२४ आशिक़ मरंदा कीनकी २४
२५ इश्क़ तेड़े दी मैं मारी २५
२६ इहो अथमि अदमानु २६
२७ इहो ड्राहियूं ड्रसु आहि २७
२८ इहो बरु भी बाज़ारि आहि २८
२९ इहो बयो हाणे काड़े २९
३० ए अची ड्रिसु हालु मुंहिंजो ३०
३१ कड़हिं अलाजे ईंदा ३१
३२ क़लंदर जोगी ३२
३३ कंदी सा कीअं क़रारु ३३
३४ कंहिंखे ग़ाल्हि सुणायां ३४
३५ काल्ह असां वटि वेही वेही ३५
३६ काल्ह असां सां तो कयूं ३६
३७ काल्ह क़ासिद ओड़ाहूं आया ३७
३८ कांगल सारे सनीह ही ३८
३९ कियड़ो मस्तु पिरियुनि ३९
४० को कीअं चवे ४०
४१ गोलीअ जी गुफ़्तार ४२
४२ ग़ुली ग़ुली मूं थे ग़ोली ४३
४३ ग़ाल्हि करियां आउं केही ४४
४४ ग़ाल्हियूं ग़ुण तुंहिंजा यार ४५
४५ घोरी घोरी घोरी ४६
४६ चरख़ो चोरियो ड़ी ४७
४७ जंहिंखे इश्कु मौला जो नाहे ४८

४८ जंहिं मेहरु मिलायो ४९
४९ जानी तो न जुग़ाए ५०
५० जे हुएं आशिकु ५१
५१ जो अङणि पेही अजु आयो ५२
५२ जोई आहियां सोई आहियां ५३
५३ जो जोग़ी ज़ुल्फुनि वारो ५४
५४ जोग़ी आहियां जोग़ी थींदुसि ५५
५५ जो तूं पेरा भरे आएं ५६
५६ ज़ार रोई कयमि ज़ारी ५७
५७ तुंहिंजी आहियां आउं ५८
५८ तूं आउ असां वटि यार ५९
५९ तूं आहीं साहिबु सूरत जो ६०
६० तूं त पाणही थो साईं ज़ाणे ६१
६१ तो कीअं विञायो पाणु ६२
६२ तोखे जानी न जुग़ाए थो ६३
६३ तो सां मुंहिंजी यार ६४
६४ दीवानी हिन जी दिलि कयव ६५
६५ न मैं ताब ना बेताब ६६
६६ नंगिड़ा निमाणीअ दा ६७
६७ नाहे ब़ारोचो को ब़ियो ६८
६८ नाहे वेचारी सा बसि ६९
६९ पसण कारण पिरींअ जे ७०
७० पांधी पैग़ामु पहुचाइ ७१
७१ पांधी नेई पहुचाइ ७२
७२ पांधी मुंहिंजे यार खे ७३
७३ पाण पुन्हूं आउं आहियां ७४
७४ पाणही पएव सुधि सूरनि जी ७५
७५ पाणही पारूं यार ७६
७६ पांहिंजा वाइदा पाड़िया ७७
७७ पेर वठो जे तूं आएं यार ७८
७८ पेरु असां वटि पाइ ७९
७९ बिरह जी बाज़ारि ८०
८० ब़ान्ही ब़ारोचल जी आहियां ८१
८१ ब़ारोचा पएव ब़ाझ ८२
८२ ब़ोलि पखी परदेसीअड़ा वे ८३
८३ भली करे आएं ८४
८४ भेनरि ही भंभोरु ८५
८५ मुलां मारि म मूं ८६
८६ मुहबत इश्क़ मौलॉ जे ८७
८७ मुंहिंजी अगर्ही लगी ८८
८८ मुंहिंजी ज़ारी ज़ारी ८९
८९ मुंहिंबो हींअड़ो होतनि साणु ९०
९० मूंखे कांध बिना हीअ काकि ९१
९१ मूंखे त मेहर यार जा ९२
९२ मूंखे तुंहिंजी सार संभार वो ९३
९३ मूंखे न विसारि ९४
९४ मूंखे होतनि हाणे ९५
९५ मूं में ऐब अपार ९६
९६ यार तोसां मुंहिंजी ज़ारी ९७
९७ राति पिरींअ काथे पेई ९८
९८ राति मुकुमि रोई ९९
९९ लख करियां शुकिराना १००
१०० लंघे वयूं काल्ह क़तारूं १०१
१०१ लिंव मूं सां जा लायव १०२
१०२ शइ आहियां काकियूं कहिड़ी १०३
१०३ शाहु थियो सैलानी १०४
१०४ सचु था मर्द चवनि १०५
१०५ सचू नांउ थो सडाएं १०६
१०६ सरतियूं ड्रियनि सलाहां १०७
१०७ सलि ड़े सौदागर १०८
१०८ सङे घरि जानी आया १०९
१०९ सारियो ड्रींहं रोआं ड़ी ११०
११० सिरु ड्रिएं तूं सिरु ड्रिएं १११
१११ हालु अची ड्रिसु ११२

११२ हिको ॾोहु ॿियो सवाबु ११३
११३ हिन ग़रीबि जो हालु ११४
११४ हीउ छडे़जि, हू वठेजि ११५
११५ हुतऊं हली हिति आएं ११६
११७ हुति तां केर हुयासि ११७
११७ हो असां वटि यार तूं ११८
११८ होत अचण जी ११९
११९ होत ॾहूं हाणे आयूं १२०
१२० होतु अची हथ ॾींदो १२१

(आ) बैत **१२३**

(इ) सचल कोशु १४६
(ॾुखियनि लफ़्ज़नि जी मानाँ)

देवनागरी सिंधी वर्णमाला

(आईवेटा/अल्फाबेट)

अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ

क ख ख़ ग ग॒ ग़ घ ङ

च छ ज ज॒ ज़ झ ञ

ट ठ ड ड॒ ड़ ढ ढ़ ण

त थ द ध न

प फ फ़ ब ब॒ भ म

य र ल व श ष स ह

ॐ

सत्नाम साक्षी

मुहागु

सिंधी साहित्य जे आकास में चिमकंदड़ सितारनि में सूफी कवी सचल सरमस्त जो नालो मुख्यु आहे. दराज़नि (सिन्धु) जो हीउ दरवेशु मालिक जे मस्तीअ में सदाईं मस्तु रहंदो हो.

दरअसल साधना कंदे कंदे ईश्वर सां मिली हिकु थी वञण जो आभासु थियण लगंदो आहे. जड॒हिं पंहिंजे वुजूद/हस्तीअ जो अहंभावु विलीनु थी वेंदो आहे, तड॒हिं तलाश कंदड़ु जंहिंखे ग॒ाल्हींदो आहे, उन जो चिन्तनु कंदे कंदे तद्‌रूपु थी वेंदो आहे.

घली पुतली लयण की, थाह सिन्धु को लैण,
अनाथ आपे आप भई, पलट कहे को बैण ।

अर्थात् नमक/लूण जी पुतिली सागर जी गहिराई ड॒िसण हली ऐं हेठि तरे ड॒ांहुं वेंदे वेंदे पाण ग॒रंदी वेई ऐं अंत में उहा सज॒ी ग॒री सागर में विलीन थी वेई, सागर जे पाणीअ सां मिली हिकु थी वेई ! 'पलट कहे को बैण' – वापस मोटी केरु ब॒ुधाए ? गोल्हण वारो ई जड॒हिं गुमु थी वियो, तड॒हिं केहिंखे सुणाए सघंदो? सचल साईंअ पिणु अहिड़ी अवस्था हासुलु कई हुई –

पसी भिति भुलियोसि त आंउ आदमी आहियां,
विघां जे वियोसि त साग॒ियो सचू आहियां.

जहिड़ो भांयुमि पाण खे, तहिड़ो आहियां आंउ,
बाक़ी रहियो नांउ, सचू मूं साहिब जो.

संतनि जी वाणी अनमोलु आहे. संतनि जे वाणीअ जो रसु वठंदड़ पिणु साराहिण

जोगा आहिनि. हक़ीक़त में संतनि जी वाणी सर्वभूमिक हूंदी आहे; भाषा, जाती ऐं धर्म जे सभिनी ब॒ंधननि खां परे. संसार जे सभिनी संतनि ऐं महापुरुषनि जी वाणी सभिनी इन्साननि खे सच जे श्रेष्ठ मार्ग ड॒ांहुं हलण जी प्रेरणा ड॒ींदड़ आहे. सिन्धु जे संतनि जी वाणी पिणु बेहदि सार वारी आहे, मतिलब सां भरियल आहे.

भारत जे विरिहाड़े खां पोइ हिन्दू सिंधी समाजु भारतवर्ष जे जुदा जुदा हंधिनि ते थोराईअ में रहे थो. वडे समूह में रहण सां ऐं पंहिंजे ज़मीन टुकर ते रहण करे पंहिंजी भाषा ऐं संस्कृतीअ जो सुठे नमूने विकासु थी सघंदो आहे. मगर अलगि अलगि ऐं नंढिड़नि समूहनि में रहणु तथा आधुनिक जीवन–शैलीअ जी अंधी पोइवारी करणु (अंधानुकरण करणु) भाषा ऐं संस्कृतीअ खां मुखु मोड़ण जा मुख्यु कारण आहिनि. हिकु सबबु इहो बि आहे त घणे अंदाज़ में लिखियलु सिंधी साहितु अरबी लिपीअ में हुअण करे ऐं अजु॒ जी नई पीढ़ही अरबी लिपी न ज॒ाणण करे उहा सिंधी साहित जे इन ज्ञान–भंडार खां वांझियल आहे.

इहा कमी दूरि करण जे मक़्सद सां 'अमरापुर साहित्य माला' द्वारां सिन्धु जे कवियुनि में सिरताज हूंदड़ शाह अब्दुल लतीफ़ जो 'रसालो' ऐं 'सामीअ जा सलोक' ग्रंथ प्रकाशित थी चुका आहिनि, जे देवनागरी सिंधी लिपीअ में आहिनि. इन ई सिलसिले में हाणे हीउ पुस्तकु 'सचल सरमस्त जी कविता' देवनागरी सिंधीअ में प्रकाशित थी रहियो आहे. टि॒न्ही पुस्तकनि खे देवनागरी सिंधीअ जो रूपु ड॒ींदड़ु विद्वान साहित्यकारु श्री. लछमण हर्दवाणी शुरूअ खां ई सिंधी भाषा, साहित्य ऐं संस्कृतीअ जो प्रचारु तथा फहिलाउ करे रहियो आहे.

शल हुन ते परमात्मा ऐं सतगुरुनि जी किरपा सदाई थींदी रहे !

शुभ कामनाउनि सां –

अमरापुर स्थान — **भगत प्रकाश**

जयपुर (राजस्थान)

ॿु अखर

कचो सचो कीन थिए, तोड़े अचनि रंग,
सचे संदे संग, कचा सचा थी विया.

संसार जे संतनि जी वॾे में वॾी देन (सौग़ात) आहे – आम ऐं ख़ास जो फ़रकु मिटाए समाज खे सम–दिरिष्टी ॾियणु, ॿियनि लफ़्ज़नि में चई सघिजे थो त संतनि जे साहित्य असांखे सारे विश्व जो मानवतावादु (Universal Humanism) अता कयो आहे. संत–साहित्यु फ़क़ति अध्यात्म या भॻितीअ जो बयानु कंदड़ु नाहे बल्कि हिन युग जे लिहाज़ खां पर्यावरण (Environment), विग्यान, समाजिक अहसासदारी, प्रॿोध, जीअण जी सभाविकता ऐं जाॻिरती पिणु संत–साहित्य कई आहे. संतनि हिक पासे ईश्वर निस्बति भावना जॻाई त ॿिए पासे हर इन्सान में व्याप्त ईश्वरु ॻोल्हे ईश्वरी भावना जो मानवतावादी रूपु पिणु खड़ो कयो. मनुष खे अलोकिक आनंद ॾांहुं वठी वेंदड़ु राजमार्गु मानों संत–साहित्यु. आनंद जे इन मार्ग तां हलंदे आनंदरूपु बणिजी वञण सां ई जीवन जे आनंद ऐं आत्मिक संतोष जो झरिणो हथि ईंदो. सिंधी संत–साहित्यु सिंधी ॿोली ऐं साहित्य जो अनोखो 'लोकवेदु' आहे. सिंधी सूफ़ी कवी **शाह, सचल** ऐं वेदांती कवी **सामी** अहिड़ो लोकवेदु रचींदड़ अवाइली कवी आहिनि, जिनि जो ॿियो कोई सानी नाहे.

१८ सदीअ वारी सिंधी भॻिती–काव्य–धारा जी इहा टिमूरती सिंधी–साहित्य–संसार जे टे मुल्ह रतन आहिनि, जिनि जे अमर काव्य ते सिंधी साहित्य ऐं समाज खे फ़ख़ुरु आहे. इन्हनि महान सिंधी कवियुनि असांखे समाजिक विवेक सां गॾु अलोकिक ऐं अणखुटु आनंदु पिणु ॾिनो आहे.

अहिड़ो आनंदु भारत जे सिंधियुनि जी नईं पीड़हीअ खे बि मिली सघे, इन लिहाज़ खां **स्वामी भगत प्रकाश महाराज** जनि श्री अमरापुर जन कल्याण ट्रस्ट (जयपुर) पारां देवनागरी सिंधीअ में संत–साहित्यु प्रकाशित करण जो जोॻो ऐं वक़्ताइतो कार्यु हथ में खंयो आहे. इन सिलसिले में पहिरीं 'सामीअ जा सलोक' ऐं पोइ 'शाह जो रसालो' प्रकाशित कयो वियो ऐं हाणे 'सचल सरमस्त जी कविता' प्रकाशित थी रही आहे, जंहिं लाइ सिंधी समाज संदनि थोराइतो आहे.

हक़ीक़त में देवनागरी लिपी हिक वैज्ञानिक लिपी आहे, जा सिंधी भाषा जी पिणु मूल लिपी आहे ऐं भारत में रहंदड़ समाज जे नईं पीड़हीअ लाइ बेहदि कारगरु लिपी आहे, जंहिं जे जरीए सिंधी भाषा ऐं साहित्यु खे ज़िंदह रखी औज ते पहुचाए सघिजे थो

तथा बियनि ॿोलियुनि जे विद्वाननि ऐं आम पाठकनि खे पिणु सिंधी साहित्य जो आनंदु माणाए सघिजे थो. इन सां राष्ट्रीय एकता पिणु साधे सघिजे थी.

सचल सरमस्तु सचो सूफी कवी हो. हू क्रांतीकारी कवी हो, जंहिंजी कविता लासानी आहे. गुज़िरियल अढाई सदियुनि खां साधकनि ऐं आम जनता जे रूह खे रीझाईंदड़ कविता अमरु आहे. सचल जे काव्य जो दाइरो काफ़ी व्यापकु आहे. संदसि काव्य झलक ॾेखारण ई हिन नंढिड़े किताब जो मक़सदु आहे.

पंहिंजे सतुर **श्री. अण्णा महाराज** जी किर्पा, **प. पू. स्वामी भगुत प्रकाश महाराज** जनि जी प्रेरणा सां ई इहो ॾुखियो कमु करे सघियो आहियां. न त मूं में एड़ी कुव्वत किथे? वरी मथां महिर कई आदिपुर (कच्छ) जे 'सिंधीलॉजी'अ वारे विद्वान पुरुख तथा सचल अभ्यासी **श्री. साहिब बिजाणी साहिब**, जिनि सचल जो चूंड कलामु पंहिंजी सुहिणी अरबी सिंधी लिखावट में मूंखे मोकिलियो, जंहिं लाइ हिन साहिब काफ़ी महिनत कई हुई. दरअसल श्री. साहिब बिजाणीअ जे करे ई मुंहिंजो देवनागरीकरण जो कमु आसानु थी पियो. संदनि ग्यान, विद्वत्ता, महिनत, लगनि, अवर्चाईअ ऐं सिंधी ॿोलीअ लाइ हूंदड़ प्यार खे प्रणाम !

मां थोराइतो आहियां **श्री. पद्माकर कुलकर्णी** ऐं संदसि सुपुत्र **श्री. समीर कुलकर्णी**अ जो, जिनि हीउ किताबु टाईप सेट करे ॾिनो. संदनि मातृभाषा मराठी हूंदे बि हिननि अॼु ताईं १२ नंढा-वॾा सिंधी किताब/ग्रंथ देवनागरीअ में ठाहे ॾिना आहिनि. मां शुकुरुगुज़ारु आहियां रेखाचित्रकार श्री दिलीप शहापुरकर, श्रीधर अंभोरे, संतोष तांदळे ऐं बियनि चित्रकारनि जो, जिनि जे कला सां हीउ पुस्तकु सुहिणो बणिजी वियो आहे.

अरबी सिंधीअ में छपियलु सिंधीअ जो अहम संत-साहित्यु देवनागरीअ में आणण जे 'ज्ञान-यज्ञ' द्वारा युगानो कार्यु कंदड़ प. पू. स्वामी भगुत प्रकाश महाराज ऐं श्री अमरापुर जन कल्याण ट्रस्ट खे ॾंडवत प्रणामु थो करियां, जिनि सिंधी ॿोली, साहित्य ऐं समाज सां वॾा वड़ कया आहिनि !

हिन पुस्तक में अणॼाणाईअ विचां थियल ग़लितियुनि लाइ मां माफ़ी थो घुरां.

ज़ाति सिफ़ाति हिकाई आहे, भोल न विझीं भोले,
सोई अंदरि सोई ॿाहिरि, सोई तुंहिंजे चोले,
तो में मूं में हुन में हरि जा, सचू सचु थो ॿोले.

लछमण परसराम हर्दवाणी

'कविता', प्रोफ़ेसर कॉलोनी,
सावेड़ी, अहमदनगर - ४१४००३ (महाराष्ट्र)
०२४१-२४२२१७९

सूफ़ी कवी

सचल सरमस्त

– प्रो. लछमण परसराम हर्दवाणी

१८ सदीअ सिंधी भगिती–काव्यधारा जी टिमूरती शाह लतीफ़ (१६८६–१७५२), सचल सरमस्त (१७३९–१८२६) ऐं सामी (१७४३–१८५०) सिंधी साहित्य–संसार जा टे अमुल्ह रतन आहिनि, जिनि जी अमर कविता ते सिंधी साहित ऐं समाज खे फ़ख़ुरु आहे.

सचल जो जनमु ई. स. १७३९ में फ़क़ीर सलाहअल्दीन साहिब जे घर में 'दराज़' नाले ग॒ोठ में थियो. सचल जो नालो अब्दुल वहाब हो. खेसि 'सचल सरमस्त' इनहीअ करे थो सडि॒यो वञे, जो संदसि काव्य/कलाम में 'मंसूरी मस्ती' आहे. सचल जे डा॒डे॒ जो नालो फ़क़ीर साहिबडि॒नो हो, जो हिकु कामिल दरवेशु हो. हुन खे ब॒ पुट हुआ. वडो॒ हो फ़क़ीर मियां सलाहअल्दीन (सचल जो पीउ) ऐं नंढो हो अब्दुलहक़ु.

सचलु अञा नंढिड़ो ई हो जो संदसि पिता गुज़ारे वियो उन खां पो हू पंहिंजे चाचे फ़क़ीर अब्दुलहक़ वटि रहियो ऐं खेसि पंहिंजो गुरू (मुर्शिद) कयो. अब्दुलहक़ सचल जो चाचो बि हो त सहुरो बि हो. शादीअ जे ब॒िनि सालनि खां पोइ सचल जी घरवारी गुज़ारे वेई. सचल वरी शादी न कई. हुन पंहिंजी बाक़ी हयाती अकेलाइप में ईश्वर जे सुमिरन में गुज़ारी. सचल जी पंहिंजे गुरूअ में बेहदि शर्धा हुई. हू पंहिंजे गुरूअ खे साख्यात परमेश्वरु मञींदो हो. ईरानी शाइर अत्तार खे बि हुन 'ख़ुदा' करे सडि॒यो आहे. अत्तार मां पिणु सचल रूहानी लाभु हासुलु कयो हुआई. सचलु हिकु 'अवेसी' फ़क़ीरु हो. अवेसी फ़क़ीर संसारु छडे॒ वियल कामिल पुरुषनि मां पिणु फ़ैज़ु हासुलु कंदा आहिनि. सन १६५२ ई. में जडहिं शाह अब्दुल लतीफ़ वफ़ात कई. तडहिं सचल जी उमिरि फ़क़ति १३ साल हुई. चयो वञे थो त पंहिंजी ज़िंदगीअ जो आखरीनि अर्से में दराज़नि में वञण खां पोइ सचल खे डि॒सी शाह साहिब फ़रमायो हो त, 'असां जेको देगिड़ो चाड़हियो आहे, तंहिंजो ढकु हीउ नींगरु

लार्हींदो !' शाह साहिब जा इहे वचन सचा साबितु थिया, छो त जेके रूहानी राज़ शाह साहिब गुझे नमूने समुझाया हुआ, तिनि खे सचल ज़ाहिरी नमूने समुझायो आहे.

सचलु पारसी ऐं अरबी भाषा जो गूढ़हो अभ्यासी हो. हू संगीत जो प्रेमी हो ऐं 'समाअ' जे वक़्ति हू बेखुदीअ में अची वेंदो हो. उन बेहदि आनंद/ब्रह्मानंद महिल संदसि नेणनि मां अज़खुदि आंसू वहण लगंदा हुआ तथा संदसि लिङ कांडारिजी वेंदा हुआ. उन हालति में संदसि मुख मां काव्यमय शब्द पंहिंजो पाण ब़ाहिर निकिरंदा हुआ. संदसि उहा कविता सामुहूं वेठल फ़क़ीर, शिष ऐं मुन्शी लिखंदा वेंदा हुआ. (संत ज्ञानेश्वर बि ' ज्ञानेश्वरी' ब़ुधाईंदो/चवंदो वियो हो ऐं बाबा सच्चिदानंद नाले हिकु भगतु उहो सभु लिखंदो वियो हो.) सचल जो कलामु सिंधी, सिराइकी, उर्दू ऐं पारसीअ में आहे.

सचलु एकांत पसंद हो. हू विचोले क़द जो हो. संदसि अखियूं हरण जहिड़ियूं हुयूं. हू सादगीपसंद, बेहदि परहेज़गारु ऐं निमाणो हो. संदसि चहिरे ते हिक अजीब उदासाई नज़रि ईंदी हुई. सज़ी हयाती सच ऐं सूंहं सां स्नेहु कंदड़ु सचलु कुदिरत जे सूंहं जो दीदारु करण लाइ पंहिंजी करवाई झूपिड़ी या पंहिंजो ग़ोठु छड़े केड़ांहुं कोन वियो. सचल ई.स. १८२९ में नवे सालनि जे उमिरि में हिन फ़ानी संसार मां लाड़ाणो कयो.

सिंधु जे सभिनी रसिक प्रेमियुनि में हीउ सूफ़ी शाइरु सचल सरमस्त जे नाले मशहूरु आहे. परमेश्वर जे प्रेम में मगनु हुअण करे इहो नालो बिल्कुल सही थो लगे. हू हिक क़िस्म जे समाधीअ में मगनु हूंदो हो ऐं एकांत में ईश्वर सां रूहानी ऐं राज़भरी गुफ़्तगू करे सदाई मस्तीअ में या बेख़ुदीअ में हूंदो हो. सचल जो कलामु आलाॅ दर्जे वारो ऐं अनमोल अर्थ सां भरियलु आहे. सचल जे कलाम जो रसु/आनंदु हासुल करण लाइ पाठक खे थोरी घणी तयारी करिणी पवंदी आहे, जंहिंकरे आम माण्हुनि खे पिणु संदसि कलाम जो अर्थु प्रापति थी सघे थो. सचल जो कलामु ज़णु मोहिनीतंत्रु आहे मगर उन में आहे अज़ीम ईश्वरी प्रेरणा ऐं प्रेरणा ड़ींदड़ शक्ती.

सचलु आलाॅ भाववादी कवी हो. हू महान पारसी शाइर हाफ़िज़ जियां क्रांतीकारी कवी हो. हुन पंहिंजे वक़्त जे ज़ाहिरी रीतियुनि ऐं रवाजनि,ढोंग, कूड़ ऐं मूर्खता जे पिरविरतुयुनि ख़िलाफ़ आवाज़ु उथारियो आहे. हुन मुला,अखूंद ऐं

मख़दूम वग़ेरह जा ऐब उघाड़िया छाकाणि त उहे ई उन वक़्त जे समाज जे सद्सद् विवेक बुधीअ जा ऐं अध्यात्मिक तथा साहितिक खेत्र में रहबर गुरू हुआ. सचल जे ज़माने में सिंधु जे ख़ैरपुर रियासत में मुला ऐं क़ाजियुनि जो अजायो/कूड़ो अभिमानु वधी वियो हो. तंहिंकरे सचल पंहिंजे कलाम में उनहनि ते कठोर लफ़्ज़नि में नुक्तहचीनी कई आहे. उनहनि खे सचे धर्म जी ज्ञाण कोन हुई ऐं सुर्ग नरक जे कल्पनाउनि खे अहमियत ड्रेई हू आम माण्हुनि खे गुमराहु करे रहिया हुआ मगर कवी सचल खेनि सच जे राह ते हलण जी सलाह ड्रिनी. मन खे निर्मलु बणाइण जो उपदेशु ड्रींदे सचलु चवे थो,

'जे मन मां कढ़ां न मेरु,
त हुज़ूरी हासुल न थिए.'

सचल जे राए मूजिबु धर्म/मज़हब ई माण्हुनि में मूंझारे में विझी छड्रियो आहे, जंहिंजे करे अजु जो इन्सानु रस्तो भुलिजी पियो आहे.

'मज़हबनि मुल्क मां माण्हू मुंझाया,
ओड़ा कीन आया, अकुल वारा इश्क़ खे'

इन्क़लाब जो कवी हूंदड़ु सचलु 'अमन जो अमीरु' पिणु हो. हुन रोज़े - नमाज़ खा वधीक हिर्दे जी शुध्दी ऐं मन जे विकार रहित अवस्था खे अहमियत ड्रिनी.

'टोड़ि रवाज ऐं रस्मूं सारियूं, मरदु थिएं मर्दानो,
पाण बेगानो, मूलु ज्ञाणीं, आहीं यार यगानो.'

सचल आज़ाद वीचारनि जो चिन्तक/वीचारवानु हो. हू कहिड़े बि धर्म या तत्वज्ञान खां परे वञी वीचारु कंदड़ु फिलासॉफ़र कवी हो. हू पंहिंजे कलाम में पाण खे ई चवे थो. 'अड़े सचू ! इन में को शकु नाहे त परमेश्वरु हिकु इ आहे. हू सभु कुझु ड्रिसे थो. हू सभिनी खेत्रनि जो बादशाहु आहे. परमेश्वरु कड्रहिं हिंदू धर्मग्रंथ पढ़हंदो आहे त कड्रहिं कुराण शरीफ़. परमेश्वर ईसा मसीह, महंमद ऐं हनुमान पिणु आहे.' सचल श्रीकृष्ण जे स्तुतीअ में कलामु लिखियो आहे. स्व. जेठमल परसराम जे राइ अनूसार गीता ऐं उपनिषदनि जी जेका सिख्या आहे, उहा ई सूफ़ी संत कसी सचल जे काव्य में आहे.

सचल श्रेष्ठ सूफ़ी कवी हो. हू पंहिंजे 'काफ़ी'अ नाले प्रेम-काव्य जे करे बेहदि मशहूरु आहे. 'काफ़ी'अ में अध्यात्म ऐं शृंगार जो, प्यार जे मेलापु मिले थो. 'काफ़ी' नज़्म खे सचे भाव-काव्य जो अर्थु हासुलु थियु आहे. सचल जहिड़ी 'काफ़ी' लिखंदड़ु ब्रियो को सिंधी शाइरु कोन मिलंदो. काफ़ियुनि में रहस्यवाद ऐं सूफ़ीवादु पूरीअ तरह भरियलु आहे. काफ़ीअ में पंहिंजे महबूब लाइ विरह वेदना लबालब भरियल हूंदी आहे -

'मूंखे न विसारि वो ढोलिया, आंउ त तुंहिंजिड़ी आहियां,
नांव साईअ जे असां निमाणनि ड्रे, ख़णी तूं नेण निहारि.'

सचल जे हिर्दे में सदाई प्रीतमु परमेश्वरु क़ाइमु आहे. तंहिंकरे सचलु चवे थो त मूंखे पथर जी पूज़ा करण जी ज़रूरत नाहे,

'सचल खे सदा सीने में सनमु,
नाहेसि ब्रियो कमु, पथर जे पूज़ा सां.'

ड्रेखाअ, ढोंग, पाखंड ऐं कर्मकांड ते आलोचना कंदड़ हिन श्रेष्ठ कवीअ खे उन ज़माने जा झूननि वीचारनि ऐं धर्म वारा नामनिहाद लोक पाखंडी ऐं काफ़िरु ठहिराए फ़ासीअ जी सज़ा ड्रियण जूं कोशिशूं करे थकिजी पिया. मगर सचल जो वारु बि विंगो कोन थियो. छाकाणि त सचल पाकदामन ऐं हलीमु हो; संदसि शख़्सियत आलाॅ ख़ासियतुनि सां भरिपूर हुई ऐं हुन में ज़बरदस्तु आकर्षण-शक्ती हुई. उन वक़्त जे हाकिमनि ते संदसि प्रभावु थियलु हो, इन करे हू झूननि वीचार वारनि अभिमानी लोकनि जे नाराज़िपे खां बची वियो.

पंहिंजे कलाम में 'सचू' तख़ल्लुस इस्तैमालु कंदड़ु अहिड़ो सचो संत-कवी सिंधी साहित्य में वरी कोन थींदो !

***



सचल जूं काफ़ियूं

अखड़ियुनि इसरारु, मूं ते को जो कयो, मियां !

१ उनहनि ता ड्रेखारियो, काकियूं ड़े कोहियारु.

२ तहीं ड्रिहाड़े कयो, बिरह बे अख़तियारु.

३ डूंगरु थो ड्रोराए, चशमनि जो चमकारु.

४ नाज़ु नेणनि जो सर्तियूं, वोड़ाए वणकारु.

५ सोज़ु सज़ण जो, सर्तियूं, सचूअ खे सींगारु.

(सुरु ससुई)

अखियां खोलि त ज़ाहिरि डेखें, इथां उहो इसरारु,

१ जंहिं दे कारणि झंग वोड़ींदिएं, सो तइं विचि तकरारु.

२ आदमि जोड़ि तमाशा लायसि, आप केतसि इज़हारु.

३ बाज़ीगरि दी बाज़ी पियड़सि, कोई ज़ाणे ख़बरदारु.

४ पुतिलीअ दी तंदु हथ तंहीं दे, आप नचाइणिहारु.

५ आप अलींदा आप सुणींदा, आपे सूरति दा सींगारु.

६ विचि सचूअ दे सोई बोले, नांहिं इथां इन्कारु.



अजु की सुबुह अचनि था, निरवार चओ निजूमी !

१ मूं हिति निमाणीअ जो पिरीं, हालु की पुछनि था?

२ हिन पार डे अचण जो, चओ की सजुण चवनि था?

३ पिरीं आहिनि पंध में, की वेड़हे पंहिंजे वसनि था?

४ सचूअ जी भी सुधि लहण लाइ, क़ासिद हेडे कढनि था?

(सुरु तोडी)



अॼु जो जाॻी आयो, नांउ तंहिंजो नथी ॼणां.

१ सिर मिटाऊं जोॻिनि वारियूं,
लिङें तंहिं बिस्मो लॻायो.

२ ज़रे जोॻी ज़रे सनासी,
तंहिं सामीअ नांउ सॾायो.

३ ज़ाति उनहीअ जी नथी सुञाणां,
छंदें पाणु छूपायो.

४ कॾहिं न ॾिठुमि ॾेह इनहीअ में,
मौलाँ सो आणि मिलायो.

५ ॾिसण साणु तंहिं जोॻीअ जे
मूं ॾाढो पूरु पिरायो.

६ सेरें बाज़ारें घिण घिण घिंघिरू,
छम छम तंहिं छमकायो.

७ सोई साॻो रांझनु हुयड़ो,
सचूअ सिरु सुणायो.



(सुरु बरवो)

अज़ु होतनि रीअ हिति हाणि, ॿिया केरि लहनि मूं सारां.

१ क़ासिद केच वणनि ड्हुं, आग़ा सिघड़ो आणि,
थी रोज़ु विझायां फारां.

२ विझां विञाणां केतिरा, क़रीबनि जे काणि,
यार मिलनि शल यारां.

३ आयूं उनहीअ पार ड्हूं, अदियूं करि उकाण,
कूंजियुनि जूं भी क़तारां.

४ संझी सुबुह सरितियूं, ॿारोचे जी ॿाण,
आहिनि सचूअ खे संभारां.

(सुरु बरवो)

अड़े अलो अलो, रांवलु आयो राॼ में.

१ वियड़ा सूर संधो करे, अॼु भेनरि थियड़ुमि भलो.

२ जंहिं साअति गॾिया सुपिरीं, सा साअति कंहिं न सलो.

३ ॻाल्हि न करियो का ॿी, हारियूं अव्हीं हलो.

४ ॾिहाड़ी ॾिसण खूं, वारु न पवंदो वलो.

५ असुलु आहे उनहनि सां, रूह मुंहिंजे जो रलो.

६ सचू गॾियो सॼणनि, खरनि लॻो खलो.

(सुरु देसी)

अदब नालि अलेसां, होसां मैं रांझू दे नालि.

१ ब॒नि खेड़ांदे तूल विहाणे, पलंगें पेरु न पएसां.

२ मैं रांझे दी रांझन मेड़ा, खेड़ा घोलि घतेसां.

३ पारि दरियाहू झोक रांझे दी, ब॒ांहुंनि तरि तरि वेसां.

४ जंहिं तड़ि माही मंझियां चारे, तंहिं तड़ि बाग़ बनईएसां.

५ हिक दिलि आहे रांझन नीती, खेड़ा नूं किया कुझु ड॒ेसां.

६ सुहिणी सूरति यारि सचू दी, कंहिं कूक कूक सुणेसां.

अदियूं उहे अज़ु आया, डेह जंहिं लइ थी ड्रोरियां.

१ ड्रियो मुबारक सरितियूं मूंखे, मौला से मुहब मिलाया,
चरख़ो केहो आंउ चोरियां.

२ दरि पेही से, वो, आइया साईं, जनि लइ मूं विरह विसाया,
पाणु मथांउनि घोरियां.

३ परड्रेह विया हा मूं पिरीं, वालीअ से पोइ वराया,
तक केहा ब्रिया तोरियां.

४ सचू उते दोस्तु गड्रियोसीं, ड्रींहं घणा जंहिं लाया,
विंदुर कंहि लइ वोड़ियां.

(सुरु ससुई)



अव्हीं पंहिंजो पाण आहियो नंग निबाहिण वारा.

१ हीअ निमाणी ऐबनि हाणी, हथ मथऊं मूरि न लाहियो,
नेण वहाइनि नारा.

२ आशिक़ संदुव आहिनि उदासी, चाह मंझूं से चाहियो,
जे विरह कया वेचारा.

३ मेलाए जो मुश्ताक़नि सां, ठाहु को सिघड़ो ठाहियो,
मरु ता करनि निज़ारा.

४. असुल लाकूं आहिनि अव्हां ते, पाण पिरीं निबाहियो,
कम सचूअ जा सारा.

(सुरु झंगिलो)



अव्हीं सभेई छो न ज़ाणो, नांउ मथिमि आहे कहिड़ो.

१ इसिमु असुल खू़ बिरह वधायो, सूरत हीअ सुञाणो.

२ पाणीअ मंझूं पारो थियो पैदा, वाउ अजबु कोई वाणो.

३ शाहजहां जो ब़ानिहो थी करि, वाई हिन विकाणो.

४ डि़सी तमाशो इहो सो सारो, वते ता पाण वेग़ाणो.

५ नांवनि वारो सुनो ड़े सरितियूं, थियो हिति कीअं निमाणो.

६ मसितीअ वारी साख न सलिजि, सचू तूं थीउ सियाणो.

(सुरु ससुई)

असीं आहियूं ! छा असीं आहियूं?
बेली नथा ज़ाणूं, छा असीं आहियूं !

१ ज़रे बारान बरिसातियूं लायूं,
ज़रे बरनि थियूं वड़ियूं बाहियूं.

२ ज़रे पढ़हूं था निमाज़ा रोज़ा,
ज़रे लोच मथे तऊं लाहियूं.



असीं आहियूं ! छा असीं आहियूं?
ॿेली नथा ॼाणूं, छा असीं आहियूं !

१ ज़रे बारान बरिसातियूं लायूं,
ज़रे ॿुरनि थियूं वॾियूं बाहियूं.

२ ज़रे पढ़हूं था निमाज़ा रोज़ा,
ज़रे लोच मथे तऊं लाहियूं.

३ ज़रे चऊं था 'आहियूं असीं ई',
ज़रे चऊं था 'असुलु नाहियूं'.

४ ज़रे आरामु आहे हिन दिलि खे,
ज़रे वहायूं नेणऊं वाहियूं.

५ ज़रे चऊं था 'असां पाणु सुञातो',
ज़रे चऊं थे 'असीं छाहियूं'.

६ सचू असुलऊं सोई आहीं,
ठाहु हिते ॿियो केहो ठाहियूं !

(सुरु बरवो)

असीं पाण खूं वयासीं, कंहिं जाइ ॿीअ पयासीं.

१ पाणखूं पाण निकिरी करे, कंहिं राह में रुलियासीं.

२ सन्हा थुल्हा सफरा, सभु छोलीअ हिक छिनासीं.

३ इहे होका हक़ीक़त जा, असां ॾेह मंझि ॾिठासीं.

४ जेकी हो सो थियो, असीं साॻी से थियासीं.

५ वेंदे उनहीअ वाट ते, असीं झंगनि कीन झलियासीं.

६ तोड़े पलियो पाड़ेचुनि, ता भी रती कीन रहियासीं.

७ मोटी मोटण जे साये, असां वॾा वस कयासीं.

८ हाज़िरु आहियूं सभु हाज में, असीं गोलनि सां गॾियासी.

९ मौज उड़ही महिराण में, तंहिं मूं पारि लंघियासीं.

१० सचलु नांउ सॾाए, असीं लोकनि मंझि लिकियासीं.

(सुरु बिलावली)

असुलु असांजड़ो आहे, नंगु ॿारोचल तोते,
छॾणु मुनासबु नाहे, नंगु ॿारोचल तोते.

१ ज़रिड़ो जंहिंखे ज़ौक़ तुंहिंजे जो,
छपरु तंहिंखे छाहे.

२ जाडे घुमाईं ताडे घुमूं था,
ॾोरि विधी तो ॾाहे.

३ जेही तेही यार अन्हांजी,
छॾणु लाइकु नाहे.

४ थरें बरें यार थकीअ खे,
रसु कोहियारल काहे.

५. साहु सचूअ जो दर तुंहिंजे ॾांहुं,
हडि न आसिरो लाहे.

(सुरुबरवो)

आउ कांगा का पिरियुनि जी ग़ाल्हि करि,
वाइदो कयुइ काल्ह सो बरहाल करि.

१ कीअं ड्डिठो तो दोस्तु मुंहिंजो देस में,
ख़ुशि ड्डिठो हुयुइ यारु कहिड़े वेस में,
सा ख़बर मूं सां सारी फ़ीअलहालु करि.

२ की पुछियाऊं ख़बर हिन जे हाल जी,
की कयइ आगाह हिन अहिवाल जी,
सो मूं सां ड्डाहा इहो अहिवालु करि.

३ हिन फ़िराक़ आहे मारियो मूं, बियो छा चवां,
सूर मुंहिंजे साह खे निति निति नवां,
आउ अदा ख़ातिर मुंहिंजे ख़ुशहालु करि.

४ के उड्डणो हुएं पिरींअ जे पार ड्डे,
के नियापा ही निया हुयइ यार ड्डे,
का मदद मुंहिंजी अदा अलहालु करि.

५ दोस्त जी बि हज़ूर जी हाज़िरु थिएं,
ज़ाग़ ज़ारीअ मूं इहे नियापा निएं,
लग़ि साईंअ सारो सचूअ जो सुवालु करि.

(सुरु कसूरी)

आउ ॿारोचल ॿेली, मूंझि तुंहिंजे मारी आहियां.

१ नाहे वाजिबु रुसणु तोई खे, तूं गुरू आंउ चेली,
सॾु न थी को साहियां.

२ इश्क़ अव्हांजे खूं होत ॿारोचा, कीअं थिरनि हीअ थेली,
ना त छपर अॻियूं चाहियां.

३ सघ न सारियां पंध करण जी, तो बिना आहियां अकेली,
केच वणनि कीअं काहियां.

४ वॻणी आहियां विरह तुंहिंजे खूं; तोड़े की पूरन चेली,
सचू न आसर लाहियां.

(सुरु झंगिलो)



आउ वेड़हे तूं ता वसु, वे भलो, पुन्हल यार मियां.

१ पिरीं मूं खे पांहिंजो, ॾाहा ॾे को ॾसु, वे.

२ निमाणीअ जो हालड़ो, पिरीं अची पसु, वे.

३ काहे ईंदी केच ॾे, गोली वठी गसु, वे.

४ पवे पाॼियाणीअ जो, तोखे मान तरसु, वे.

५ वेहणु आहे भंभोर में, बिना इश्क़ अबसु, वे.

६ सोजु अव्हांजो सुपिरीं, सचूअ आहे सरसु, वे.

(सुरुबरवो)



आउं कोड़ें थियां कुरबानु, जोग़ीअड़नि जे जाति तऊं.

१ काकियूं कापड़ियुनि जो, ड्राढो आहे मूं अरिमानु.

२ आयलि ! अवधूतनि जो, आहे गंगा में गुज़िरानु.

३ नांगनि संदी ग़ाल्हिड़ी, हिति पूरब में परवानु.

४ सचू साथु निहारीं छो थो, ब़िए हंधि तूं महिमानु.

(सुरु बरवो)



आउं ता तुहिंजड़ी आहियां, यार मूंखे छो थो छड्डीं ?

१ तूं ता मुंहिंजो आहीं असुल खूं, कंहिं न बिए दरि काहियां,
होत ईंदें हिति कड्डीं?

२ आउं निमाणी ऐबनि हाणी, सड्डु न साणुव साहियां,
पखा ओरे आणे अड्डीं.

३ तोड़े सुञाणीं, तोड़े न ज़ाणीं, लालचि ता भी न लाहियां,
साणु गोलीअ पाण गड्डीं.

४ आउं ता ब्रान्ही तूं ता साईं, आउं ग़रीबि सा छाहियां,
नांउ सचू करे सड्डीं.

(सुरु कल्याण)

आउं पुन्हूं पाण आहियां, काकियूं मुंजां क़ासिद काॾे.

१ इहा सूरत समुझी ॾिठियमि, साथी ॿिया कीअं संभायां.

२ ॻाल्हि परे हुई थी पई ओरे, केॾे से कांग उॾायां.

३ मुद्दआ मतिलॿु हो मिड़योई, पोथियूं से केहूं पटायां.

४ सुधि पई मूं सिर्र इनहीअ जे, केच भंभोर खे भायां.

५ सचूअ मंझूं थियो सचु पैदा, केहूं कूड़ियूं ॻाल्हियूं ॻायां.

(सुरु कल्याण)

आखो ड़े आउं केरु आहियां, ज़ाति न ज़ाणां केरु.

१ सही करे कीन सघां थो, भेनरि पंहिंजो भेरु.

२ काथऊं थी आउं काथे आयुसि, पिरतऊं पातुमु पेरु.

३ साग़ियो ई सो रांझो आहियां, तंहिं में फंदु न फेरु.

४ पाणऊं ज़ाणी पेर घुमायमि, सुरहो कियड़ुमि सेरु.

५ मके मंझि मसीति बणायमि, जणियो जसलमेरु.

६ सचू नांउ त आहे मुंहिंजो, हड़ि न आहियां ग़ैरु.

(सुरुबरवो)

आपे शाहु आपे गदाउ, आपे अमीरु उमराउ.

१ आपे धीउ, आपे पीउ, आपे पुटु, आपे माउ.

२ आपे जोइ आपे मुड़सु, आपे भेण आपे भाउ.

३ आपे मौज आपे लहिर, सचल आपे दमुदमु दरियाउ.

आयो मुंहिंजे घरि यारु,

जंहिं जे कारणि मूं थे साथी संभाया.

१ दरि पेही मूं आइयो, दोस्तु मिठो दिलदारु.

२ सो ई गड्डियो सुपिरीं, हो जंहिंजो जीअ खे जारु.

३ बिलकुल कयाऊं पांहिंजो, ड्डिनाऊं क़ौलु क़रारु.

४ माफु कयाऊं मिहर सां, मूं ते हुई मयार.

५ सचू सरहाईअ में, छड्डि रोअणु ज़ारोज़ार.

(सुरुबरवो)

आशिकु कीतुइ उदासी, वह वाह ग़ाल्हि ख़ासी.

१ रोज़ु अज़ल खूं लुंव लुंव मुंहिंजी, वाह विरह जी वासी.

२ दिलड़ी असांजी सुहिणा साईं, पहिरियों कयइ पियासी.

३ हेड़े होड़े कीन वियासी, बास इहा असां बासी.

४ बेख़ुदीअ मूं बाग़ बहारां, ख़ुदीअ खां ख़ुलासी.

५ बिरह आं जे कयो बैराग़ी, सचू रंग सनासी.

(सुरु जोग़-आसा)



आशिक़ मरंदा कीन की, रहंदा कीन मकान में.

१ दीवाने दरियाह जो, पीतऊं पियालो पुरु करे,
अजर मंझि अमरु थिया, उहे गड्डिया कीन जहान में.

२ ग़ैब में जे ग़रकु थिया, तनि घाव गरदन में लगा,
ॿोली ॿोलिनि था ॿी न का, उहे रहनि 'अलामान' में.

३ केई पड़हंदे साल थिया, रोज़ा नमाज़ूं नफ़ल नी,
तनि कुठनि कल का न का, बातन जे बियान में.

४ चीन विलायत घरु करे, घड़ी घारिनि कीनकी,
पसनि हादी हक़ खे, रहनि था बियाबान में.

५ हरदम आहे दमु दोस्त ॾे, उहे सूंहंनि था सर अंजाम में,
सचूअ खे सो ई मिल्यो, ही गुरु अची त ग्यान में.

(सुरु कसूरी–जोग)

इश्क़ तेड़े दी मैं मारी, निति निति करां ज़ारी.

१ अङण असां ड्रे वे आवें पियारल, आउं ड्रेवीं दिलदारी.

२ मैं ता तैं तूं सुंहिणा साईं, थीवां वारण वारी.

३ मस्ती ड्रेके कियूं तैं दिलबर, लाइ खड़ा हुणु यारी.

४ चश्मां तेड्रियां चेटक लायां, ख़ूनी फिरनि ख़ुमारी.

५ बिरह तुसाड्रे बख़्शिशि कीती, सचू कूं सरदारी.

इहो अथमि अरमानु, छा मंझां हिति छा थी आयुसि.

१ चाकरु थियुसु न ज़ाणां छाखूं, ना त होसि सही सुलतानु.

२ होसु दानाउ देस उन्हीअ में, हिति नांउ थियुसु नादानु.

३ कोई ज़ाणे कोई सुञाणे, इहो मरदीअ जो मैदानु.

४ बहिर अवाघ जो लहिर लिकायो, थियो तरह नवें तूफ़ानु.

५ असलूं साणु वठी हिति आयुसु, सूरनि जो सामानु.

६ हिक घर खूं थी ॿे घरि आयुसु, महज़ आयुसु महिमानु.

७ बहिर उतूं जा लहिर उभी थी, मोटी थियो महिराणु.

८ सचूअ खे कयो साइत साइत, हैरत हिन हैरानु.

(सुरु धनासिरी)

इहो ड्राहियूं ड्रसु आहि, सांवलु इते वसे थो.

१ फोले लहिजि पाण मूं, परे न पेरा पाइ.

२ दाइमु आहे दोस्त जी, तुंहिंजे जीअ में जाइ.

३ कंहिं जे कारणि थी करीं, हारी ड़े हाइ हाइ.

४ सोई ड्सिंदड़ु, सोई सुणंदड़ु, पाणहीं ग़ाल्हियूं ग़ाइ.

५ सारा ड्रूंगर ड्रोरिएं, काकी ड़े कंहिं लाइ.

६ सचू ओड्रो साह खूं, केरु चवे ता नाहि.

(सुरु तलंगु)

इहो बरु भी बाज़रि आहि, जिते देरो दोस्त जो.

१ डूंगरु डोली भांइयां, सुपेरियां जे साइ.

२ चुमंदियसि चपनि सां, सन्दी जानिब जाइ.

३ मुहबत महबूबनि जे कारी, हींअड़े खे हाइ हाइ.

४ वेठी कांग उडायां, लखें लालन लाइ.

५ मूं खे केच वणनि में, नेईं पांधियड़ा पाइ.

६ साथी सुपेरियनि सां, हीअ गदागरि गडाइ.

७ सचू सजुणनि खे मियां, पांदु गिचीअ में पाइ.

(सुरु बरवो)

इहो वयो हाणे काड़े, जंहिं सचू सो नांउ सड़ायो.

१ मुखिड़ीअ मंझूं, वे मियां, थियो गुलु पैदा,
मुंहुं करे बीठो माड़े.

२ सुधि न पेई, वे मियां, तरफ़ इनहीअ जी,
जानि जुसो वयो जाड़े.

३ उहो हले थो, वे मियां, उहो चले थो,
गोशो कयो वञे काड़े.

४ ड़ेहु ड़ाड़ाणो, वे मियां, अगु ड़िठोसे,
पलक कई पर ड़ाड़े.

५ नांउ सचूअ जो, वे मियां, वयो ओड़ाहीं,
तलब वेई भी ताड़े.

(सुरु बरवो-ससुई)

ए अची डि॒सु हालु मुंहिंजो,
आउ अची सुणु अरज़ु ही.

१ नींहं ता मूंखे नियो, क़ित न का तन खे रही,
मुश्ताक़ जो मारण संदो, आहे अव्हां खे ग़रज़ु ही.

२ डा॒हा वञी बिया छो पुछां, मूं ता परूड़ी ग़ालुहिड़ी,
दरदु बि॒यो मूंखे न आहे, मुहबत तुंहिंजीअ जो मरज़ु ही.

३ दिलि खसे मूं खऊं विएं, मोटी न आएं छा चवां,
सुधि लहो साजन ! अची, आहे अव्हां ते क़रज़ु ही.

४ आउ अची इमामु थीउ, तोते असां नियती नमाज़,
सिरु [illegible] रणु सदिक़े अव्हां तऊं, आहे सचूअ ते फ़रज़ु ही.

कड्हिं अलाजे ईंदा, यार सांगियड़ा मियां.

१ सिघे अचण जूं कांग असांखे, अची वाधायूं ड्रींदा.

२ ड्रेई दिलासा दिलि मुंहिंजीअ खे, नालि निमाणीअ नींदा.

३ इहे ई उमेदूं आहिनि असां खे, हिकु थकीअ सां थींदा.

४ कीअं से ड्रिसंदा ड्रोहनि असां ड्रे, बदियूं सभु बख़शींदा.

५ आहे ओसियड़ो अखड़ियुनि खे, गोली साणु गड्डींदा.

६ केच वणनि खूं पटे से पखड़ा, आणे हिति होत अड्डींदा.

७ जेहो तेहो सचू संदनि आहे, पांहिंजो कीन छड्डींदा

(सुरु बरवो)

क़लंदर जोगी, कइसी तो बीन बजाई.

१ दिलि दरियाह दियां सव लख लहरियां, लहरें नालि लुड़िहाई.

२ रांझनु आया अङणि असां ड॒े, सुरही सेज विछाई.

३ अंगि लिखियो नी अग॒हीं, सुहिणे नालि सदाई.

४ मैं रांझनि दी रांझनु मेड॒ा, लुंव लुंव रांझन माही.

५ सचू हइ मिस्कीनु अल्लह दा, दर दर बावु ते माई.



कंदी सा कीअं क़रारु, जेडियूं जंहिंजो जीअड़ो जतनि सां.

१ विरह वारनि खे सरतियूं, वेझी आहे वणकार.

२ बुड़यूं बुारोचल जो, नींहुं लगुमि निरवारु.

३ मुहबत गिधे न लभे, ख़र्चीं लख हज़ार.

४ डिसंदियसि अखिड़ियुनि सां, काकियूं ड़ी कोहियारु.

५ छड़े लागापा लोक जा, इश्कु कयुमि अख़तियारु.

६ सदा आहे सचूअ खे भेनरि, बिरह बहार.

(सुरु कोहियारी)



काल्ह असां वटि वेही वेही, वो यार सजुण कयव ग़ाल्हियूं.

१ से न विसिरनि साह मुंहिंजे खे, ग़ाल्हि करियां ब़ी केही केही.

२ बेहर ब़ारोचा ब़ाझ पई तूं, आउ पखे हिन पेही पेही.

३ डीहं ब टे चारि दोस्त असांजे, रमज़ुनि सां दिलि रेही रेही.

४ हुजु हमेशह यार असां वटि, पिरीं न थिजि परड़ेही परड़ेही.

५ कयो बैराग़ी डींहं तंहिं लाकूं, दोस्त सचूअ जे वेही वेही.

(सुरु बरवो)

काल्ह असां सां तो कयूं कयूं,

यार सजुण गुझियूं गाल्हियूं.

१ थियनि पुराणियूं कीनकी, निति से आहिनि नयूं नयूं.

२ रहियूं आहिनि रूह में, चङियूं अव्हां जे चयूं चयूं.

३ कीन विसिरनि साह खूं, उहे ता पाड़णु पयूं पयूं.

४ मिठियूं गाल्हियूं तांहिंजियूं, हिन सचूअ साह संयूं संयूं.

(सुरु बरवो)

काल्ह क़ासिद ओॾाहूं आया, चे : जानी ईंदड़ अॼु जाई !

१ असीं तां ओॾाहूं अॼु आयासें, हुअनि अचण जा साया,
केच हुई हीअ वाई.

२ सिकीं सारीं जनि खे, वो मियां, वालीअ पोइ वराया,
अची थींदइ ॾुख भाई.

३ ॾींहं घणा तो होत पुन्हूंअ रे, विरही मींहं वसाया,
आई ओॾाहूं वाधाई.

४ इझे ईंदइ सुपिरीं, वो मियां, ॾींहं घणा जनि लाया,
कल न पवंदइ काई.

५ सचू सिकंदे साल थिया, वो मियां, ॾुखिया मूं ॾींहं लंघाया,
वञे हीअ उमिरि अजाई.

(सुरु बरवो)



कांगल सारे सनीहा ही, चइजि मारुनि खे वैराॻी आहियां.

१ अव्हां ॿाझूं आउं घणेरो, महलनि में मांदी,
क़िस्मत क़ैदअलमाइ जी, इरादे आंदी.

२ चांवर छा चूरिमां, अछनि निति नवां,
ॾौंरा पुसियूं ॾेह जा, सारियो हिति रुवां.

३ ज़हिर पियाला सोज़ जा, ओतियों आउं पियां,
अव्हां ॿाझूं सुपिरीं, मरां आउं की जियां.

४ ॾुखनि कारणि ॾेह में, निपायसि अव्हां,
सचू अखिड़युनि मूं, सारे रतु रुवां.

(सुरु झूलिणो-मारुई)

कियड़ो मस्तु पिर्‌युनि जे खणी नाज़ मूंखे,
विसिरियो रोज़ो नाहे, यादि नमाज़ मूंखे,

१ शौक़ शराबु पियां, पिर वटि रातो ड्रींहां,
कोन्हे सोज़ क़ाज़ी मुलां, जो को लिहाज़ु मूंखे.

२ नेणें निंडड़ी हरामु, आहे वत-रोज़ अज़ल,
सुरंदो सोज़ सज्जुण, जो आहे साज़ु मूंखे.

३ वाई वात कहाई, मुईअ खे जेका पिरियुनि,
अचे वरी हू हू पिरियुनि, जो थो आवाज़ु मूंखे.

४ सचल मक़्सदु सारो, तूंहीं बति तूंहीं अल्‌लहु,
ड्रसि को राज़ु पंहिंजे, जो को नियाज़ु मूंखे.

(सुरु तलंगु)



को कीअं चवे को कीअं चवे, आउं जो ई आहियां सोई आहियां.

१ को मोमिनु चवे को काफ़िरु चवे, को जाहिलु नालो ज़ाहिरु चवे,
को साहिरु चवे को शाइरु चवे, आउं जोई आहियां सोई आहियां.

२ को पंथु चवे को संतु चवे, को बाग़ बहार बसन्तु चवे,
को मीरासी कलवंतु चवे, आउं जोई आहियां सोई आहियां.

३ को मुलां चवे को क़ाज़ी चवे, को मुफ़्ती चवे को ग़ाज़ी चवे,
को रोज़हदारु निमाज़ी चवे, आउं जोई आहियां सोई आहियां.

४ को रदि चवे को बदि चवे, को बे दीनी बेहदि चवे,
को मशरिकु भी मुलहदि चवे, आउं जोई आहियां सोई आहियां.

५ को सूरत में इन्सानु चवे, को शिर भरियो शैतानु चवे,
को बुज़्रगु को मस्तानु चवे, आउं जोई आहियां सोई आहियां.

६ को सुस्तु चवे कोई सरमस्तु चवे, को राह ते दीन दुरुस्तु चवे,
को आशिकु रोज़ अलस्तु चवे, आउं जोई आहियां सोई आहियां.

७ को ज़ेरि ज़बर ज़ंदीकु चवे, को राहनुमाउ रफ़ीकु चवे,
को ग़रक़ीअ मंझि अमीकु चवे, आउं जोई आहियां सोई आहियां.

८ को रंगु कोई बेरंगु चवे, को मस्तौमस्तु मलंगु चवे,
को नंगी को बे नंगु चवे, आउं जोई आहियां सोई आहियां.

९ को हाली चवे को क़ाली चवे, को ख़ास अलख़ास ख़ियाली चवे.
को अज़ली मस्तु मवाली चवे, आउं जोई आहियां सोई आहियां.

१० को शकु चवे नाहकु चवे, को बाति इहा बरहकु चवे,
मूंखे मुरशिदु अब्दअलहकु चवे, आउं जो ई आहियां सो ई आहियां.

११ को ख़ास चवे को आमु चवे, को पुख़्तो चवे को ख़ामु चवे,
को सचू सचो नामु चवे, आउं जोई आहियां सोई आहियां.

(सुरु भेरवी)



गोलीअ जी गुफ़्तार, ॿुधियव ॿारोचनि में का.

१ खुता कान क़रीब जा, हींअड़े मंझि हज़ार.

२ आउं पियादी न पुॼां, सारो साथु सुवार.

३ उनहनि कारणि आइयो, रोअणु ज़ारोज़ारु.

४ लधुमि पेरु पुन्हूंअ जो, मंझूं गरद गुबार.

५ अचे शाल भंभोर में, ॿारीचो ॿेहार.

६ पाणूं ॿान्हीं पांहिंजी, दोस्त न कजो धार.

७ कनि सचूअ ड॒े सच जी, मंझूं नींहं निहार.

(सुरु ससुई)

गुली गुली मूं थे ग़ोली ग़ोली,

यार सज्जण तुंहिंजे कारण.

१ छड्डे लग़ापा लोक जा, असां ता ब़ानहप ब़ोली.

२ थियसि दीवानी दोस्त अव्हां लइ, करे चेहाड़ियूं चोली.

३ अची अचानक अंदरि असांजे, हुब मचाई होली.

४ असुल लाकूं आहे अव्हांजी, हीअ ग़रीबी सा गोली.

(सुरुबरवो)



गाल्हि करियां आउं केही, हाल पंहिंजे जी, ड़े जेड़ियूं.

१ काल्ह काल्होणी सुपरीं, वया वटूं मूं वेही.

२ छड्डे शहिर भंभोर खे, वया पहाड़ियुनि पेही.

३ करे परेशानु वया, दरदमन्दीअ जी देही.

४ आउं उनहनि जी आहियां, जेही जे तेही.

५ मारणु पोइ जियारणु, रसम उनहनि जी एही.

६ सचू सोज़ फ़िराक़ जा, बार खणनि के नेही.

(सुरु बरवो)



गाल्हियूं गुण तुंहिंजा यार सजुण, मूं खे रोज़ु रुआरिनि था !

१ सिर ते सोज़ फ़िराक़ जा, बारी चाड़हियइ बार सजुण,
एडांहुं नेण निहारिनि था.

२ मुंहिंजो अंदरु अधु कयो, जानिब तुंहिंजे जार सजुण,
मूंखे माणा तुंहिंजा मारिनि था.

३ पिरीं पाड़िजि पांहिंजा, जे कियड़इ क़ौल क़रार सजुण,
मुंहिंजो जीउ जियारिनि था.

४ माण्हू शहर भंभोर जा, महिणा लख हज़ार सजुण,
मूंखे डेह खूं डियारिनि था.

५ क़ासिद चवनि, केच जा, तूं हुति सार संभारि सजुण,
तोखे सचू पाण संभारिनि था.

(सुरु ससुई)



घोरी घोरी घोरी, वो मियां, जिंदु सजुण तो तां घोरी.

१ रातो ड्रींहं, वो, आहे अव्हां जी, साईं झोरी झोरी.

२ गिचीअ विधियव अजब जेही, सुहिणा ड्रोरी ड्रोरी.

३ तन्दु न ज़ाणां वो कंहीं हीअ, साहिब चोरी चोरी.

४ दिलि खसियाई वो लुट नीतियाई, हाकिम ज़ोरी ज़ोरी.

५ अवलि आसानी ग़ाल्हि पोइ कियड़इ, सभ खां ग़ौरी ग़ौरी.

६ सचू लायव सच मंझारूं, लालन लोरी लोरी.

(सुरु कसूरी)



चरख़ो चोरियो ड़ी, ईंदुव कमु त कतणु,
जॻो जॻो ड़ी, छॾि खणी साव जो सुमहणु.

१ हिति कीअं रीधींअ रांदि में, विसिरी वियुइ मौत मरणु.
अॻतूं हलंदीअ होत ॾे, कीअं थींदुइ कंधु खणणु.

२ जीअं फोटो पाणीअ में तरे, तीअं थई जानि जीअणु,
ख़ूबी वेंदइ निकिरी, ॼाएं हुएं न ॼणु.

३ वांदी वेहु न वेसली, करि का कारि कतणु,
पांधी लाइजि पिरीति सां, जिते इश्कु आतणु.

४ साहिब ॾिनो चवे सिखु तूं, परिवाने जियां त पचणु,
सड़ां सघनि कीन की, अहिड़े रंग रचणु.

(सुरुबरवो)

जंहिंखे इश्कु मौलॉ जो नाहे, सो ॼुणु झंग जनावरु आहे.

१ वहिम इरादा ख़ियाल ॿिया विचि, ॻाह बिरह जी ॻाहे.

२ हू जो कोटु हुअण जो, डोड़ पहिरींअ सां डाहे.

३ आशिकु तॾहिं कोठिजे, जॾहिं सभु लॻापा लाहे.

४ दोस्तीअ ॿाझूं दोस्त जे, हड़ि ठाहु न बियो को ठाहे.

५ मुहिबत जे मैदान में, सव कामिल पवनि काहे.

६ सचू साहिबु सिक वारनि खे, चाह मंझूं पियो चाहे.

(सुरु भेरवी)

जंहिं मेहरु मिलायो, तंहिं घड़े तां घोरी आहियां.

१ तंहिं कुंभर तूं कुरबानु थियां, जंहिं कचो पचायो.

२ अव्हीं जेकसि जेड़ियूं, इहो भेलो थियूं भांयो.

३ तंहिं मूं खे तार कुननि मूं, मंझूं लहिरुनि लंघायो.

४ इनहीअ दाबु दिले जे, सारो दरियाहु दबायो.

५ पाण पंहिंजो सर्तियूं, मियां घोरे घुमायो.

६ असुलु अण तारीअ जो मियां, आहे साहड़ ते सायो.

७ सेणाहिन जे सर्तियूं, मूंखे लारे न लायो.

८ साहड़ु सीर में तो वटि, सचू उकीरूं आयो.

(सुरु तोड़ी)



जानी तो न जुॻाए, रुसणु निमाणीअ सां.

१ दोस्त अव्हांजे दर ते, वेठी विरहु वसाए.

२ ॿाहिरि ॿान्ही तांहिंजी, सांवल हीअ सॾाए.

३ अचण लाइ अव्हांजे, पांधी रोॼु पुछाए.

४ फ़ालां फ़लक फ़िराक़ जूं, वरेतियुनि खां विझाए.

५ सुवालु सचूअ जो सुपिरीं, अजिज़ साणु अघाए.

(सुरु बरवो – भेरवी)



जे हुएं आशिकु त बरसिर मींहुं मुहिबत जो वसाइ.
साह जो सांगो करीं, ता पेरु हिन पिड़ में न पाइ.

१ पाणु कुलु कुरबानु करि, हीअ दमु हणण जी नाहे जाइ,
आउ अदा अइतबारु करि, आहे होशु नींदड़ हीअ हवाइ.

२ रतु रूअणु रातो ड्रींहां, आहे लुछणु महबूब लाइ,
ही मिलेई सौदो सहांगो, कीनकी सिर खूं सवाइ.

३ कीनकी मूंखूं थियो, हीअ उमिरि ता वेई अजाइ,
ही विसारे नी विहणु, जानी न हीअं तोखे जुगाइ.

४ हीअ महिल मोचारी आहे, पोइ करींदें हाइ हाइ,
हाइ हाइ मूं हथि न ईंदुइ, वेल गुज़िरियइ वाइ वाइ.

५ हीअ हक़ीक़त हाल जी, सारी वञी साईंअ सुणाइ,
सो सचो मुरशिदु सचूअ जो, पेरु अब्दअलहकु आहि.

(सुरु झंगिलो)

जो अङणि पेही अॼु आयो, सो सामी मूं ता सही सुञातो.

१ बैराॻीअ जो बेखु करे, तंहिं केॾो हुनुरु हलायो.

२ सर जटाऊं जोॻिनि वारियूं, तंहिं लिडें बसमो लॻायो.

३ मुरलीअ मस्तु आवाज़ इनहीअ जे, मुंहिंजो रूहु रीझायो.

४ रांझू तख़त हज़ारे वारो, मौलॉ आणे मिलायो.

५ अतुर अंबीर इनहीअ जे कारण, मूं ता मुश्क मिलायो.

६ पियारे ही सिर्र पाणूं ॼाणी, सचूअ खे समझायो.

(सुरु जोॻ)



जोई आहियां सोई आहियां, हिंदू मोमिनु नाहियां.

१ ना मैं मुलां ना मैं क़ाज़ी, ना मैं सबकु पड़हायां.

२ ना मैं मसजिदि ना मैं हुजरा, अंदरि पेरु न पायां.

३ ना मैं कअ्बा ना मैं क़िबला, मके मूल न जावां.

४ ना मैं सुनी ना मैं शीआ, सैदु कीअं सड्रायां.

५ ना मैं नानिकु ना मैं लछमणु, गंगा मूल न जावां.

६ यारु त मेड्रा दरस दराज़ें, सचलु नांउ सड्रायां.

(सुरु झंगिलो)

जो जोगी ज़ुलफुनि वारो, सो सामी मूं ता कीन सुञातो.

१ गल कई कफ़नी दस्त पहोड़ा, मशअ्ल मुंहं मोचेरो.

२ अंगि भभूतु बनाए आयो, बेख पई वणिजारो.

३ बिए लिबास को रांझू ईंदो, छहे तख़तु हज़ारो.

४ सबब इनहीअ खूं कीन सुञातुमि, मारियों मुरलीअ वारो.

५ सचूअ सुञातो त रांझनु आहे, जड़हीं हालु सलियाईं सारो.

(सुरु जोग)

जोॻी आहियां जोॻी थींदुसु, जोॻी जुंॻु ॼुवानु

१ ना मैं मुलां ना मैं ॿांभणु, ना मैं वरक़ कुरानु.

२ ना मैं पोथी ना मैं पौड़ी, ना मैं गीता गियानु.

३ ना मैं ओलहु ना मैं ओभरु, ना मैं ज़मीन आसिमानु.

४ शहरु सचल दा विचि दराज़ें, नाहें मके मुलतानु.

(सुरु झंगिलो)



जो तूं पेरा भरे आएं, तुंहिंजे थोरे हिक न पुजां.

१ आशिक़ हिते लखें हज़ारें, लिंव असां सां थो लाएं.

२ ऐब असां में आहिनि अपारें, उहे भला कयो थो आएं.

३ ॾोह ॾिंगायूं ॾिसी असांजूं, चितु न असां तूं चाएं.

४ रातो ॾींहां यार अन्हांजा, गुण सचू थो गाएं.

(सुरु जोग)



ज़ार रोई कयमि ज़ारी, दोस्त ड़े तोरीअ ता न सरे.

१ मुहबत तुंहिंजे, वो कयसि मस्तानी, बारु बिरह जो बारी,
दोस्त ड़े चवे लोकु चरी.

२ हिन बंदीअ खे बख़्शि बलोचा साईं, होत अची हिक वारी,
दोस्त ड़े संदुइ ज़ौक़ ज़री.

३ मेलाए लगि मुहब अव्हांजे, वाझ विझे वेचारी,
दोस्त ड़े वञां ता म मरी.

४ आहे मिड़योई वो, तोखे मअ़लूमु साईं, हालु हक़ीक़त सारी,
दोस्त ड़े वञु म यार वरी.

५ जेकी आहीं सो ता तूं हीं साईं, हुकुमु संदो आहे जारी,
दोस्त ड़े ख़बर पियड़मि खरी.

६ सचू आहे सगु अव्हां जो साईं, ड्डिजो तंहिं दिलदारी.
दोस्त ड़े वञनि ग़ुच ग़ुरी.

(सुरु बरवो)

तुंहिंजी आहियां आउं, पंहिंजी करे ज॒ाणु.

१ जाड़े ताड़े तूं हीं दिलबर, काड़े काहियां आउं,
हूंदियसि अव्हां साणु.

२ आउं कनीज़क तूं ता साईं, सड॒ु न साहियां आउं,
चीटक कयसि अज॒ाणु.

३ सिकनि केई तो लइ सांवल, हिक ता छाहियां आउं,
सदिके कयुमि पाणु.

४ तो हिकं ब॒ाहिरि सुणु सचू रे, को दमु नाहियां आउं,
मुंहिंजो झलिजि ब॒ाणु.

(सुरु जोग)

तूं आउ असां वटि यार,

तुंहिंजे अचण काणि जीअड़ो जखे थो.

तुंहिंजे अचण काणि साहड़ो सिके थो.

१ बसि न वहण खूं करनि, नेणनि सन्दा नार.

२ माठि कंदे ई चाड़हिया, बिरह असां ते बार.

३ पिरीं पाड़िजि पांहिंजा, जे कयइ क़ौल क़रार.

४ चुमी चशमनि ते खंयुमि, तुंहिंजो इश्कु अल्लहु तोहार.

५ बाहि जेहो आउं भांइयां, जो दमु तो हूं धार.

६ रातो ॾींहां तांहिंजी, आहे सचूअ सार संभार.

(सुरु बरवो)



तूं आहीं साहिबु सूरत जो, हीउ आहि गुलामु तुंहिंजो,
आहे ज़ौकु शौकु सुहिणा, मूं खे मुदामु तुंहिंजो.

१ जे आहिनि असुलु अव्हांजा, से ना विसारिजो मियां,
मूं ते आहे मुक़ररु, साईं समलामु तुंहिंजो.

२ रातो ड्रींहां रोअण में, हींअड़ो उदासु हुयड़ो,
रहिबर आणे रसाणियो, पिरीतम पयामु तुंहिंजो.

३ दिलगीरु तूं मतां थिएं, करि दूरि दर्द खे मियां,
अवलि आख़िरि असां वटि, हूंदो मुक़ामु तुंहिंजो.

४ रदि करि फ़ना फ़िकिर खे, उमेदवारु थी रहु,
हिति हुति य़क़ीन ज्ञाणिजि, आहियां इमामु तुंहिंजो.

५ तूं आहीं असुलु असां जो, आहियूं अर्सीं से तुंहिंजा,
आहे क़बूल कुली, सचू कलामु तुंहिंजो.

(सुरुबखो)



तूं त पाणही थो साईं ॼाणे,

केहो हालु चवां तोखे हाणे.

१ दिलि दीवानी कई असांजी, मुहब अव्हां जे माणे.

२ ॾोहनि ॾे ॾिसु कीन असांजे, साईं तूं पाण सुञाणे.

३ दरदमंदीअ जी दिलि तोईं सां, अखिनि अड़ाई आणे.

४ कॾहिं असां वटि ईंदें दिलबर, वेठी विझां वेञाणे.

५ सुवालु सचूअ जो आहे इहोई, तुंहिंजो इश्कु न शाल उकाणे.

(सुरु बरवो)

तो कीअं विञायो पाणु,
गोले लहिजि पाण खे.

१ पाणु विञायो न लहीं,
भञी शकु गुमाणु.

२ आख़िरि गड्डियुइ घर में,
मियां सोई घरु सुञाणु.

३ मखणु अखरु हेकिड़ो,
मियां सोई खीरु संबाणु.

४ आहीं नाहीं आहि सभोई,
आहि नको उहिञाणु.

५ छा जे थींदो, छा जे लभंदो,
सूरत विचि सुञाणु.

६ सचू थी सचु आइयो,
माणु इनहीअ महिमानु.

(सुरु भेरवी)

तोखे जानी न जुगाए थो, रूसणु निमाणनि सां.

१ जेही तेही तांहिंजी, आउं असुल खू आहियां,
अव्हांजे ता अचण जो, आसिरो हड़ि न लाहियां,
सिर ते सोज़ फ़िराक़ जा, ही मींहंड़ा वसाए थो.

२ परे करि न पाण खूं, डे दिलबर दिलासो,
तोरीअ सुझे कोन को, मूंखे पिरीं बियो पासो,
जेहो तेहो असुल खूं, ही संदो सड़ाए थो.

३ सुखनि मथे डुखड़ा, थी मुहिब मटायां,
ग़मु ख़ुशीअ खू अगिरो, आउं भलेरो भायां,
मुंहं मुक़ाबिल तांहिंजे, इहो गूंदरु गड़ाए थो.

४ अङा निमाणे जे तूं, अचिजि अल्लह काणि,
हेकर होत करेजि तूं, यार भेरो मुंहिंजे भाणि,
सोज़ु तुंहिंजो सुपिरीं, हिति सांवल सिझाए थो.

५ वठी वेठी आहे, इहो वइदो वेचारी,
गिचीअ पाए कपिड़ो, हीअ करे थी ज़ारी,
सचू सगु अव्हांजो, हिति पांधी पुछाए थो.

(सुरुबरवो)

तो सां मुंहिंजी यार, रहिजी अचे शाल.

१ आउं छा ज़ाणां इश्क़ मंझारूं, बिरिह वालिड़ा बार.
२ तरफ़ न बिए कंहिं ख़ियालु रुंभायां, आहे सदाईं तार.

३ हूंदें हमेशह गडु असां सां, नेणनि वहायमि नार.
४ ॿांहं सचूअ जी सुहिणा साईं, परती अथव सरदार.

(सुरु जोग-पूरबी)



दीवानी हिन जी दिलि कयव, को दोस्त दिलासो ड्रियो.

१ तो ब्राझूं सांवल साईं, चउ केरु को पुछंदो ब्रियो.

२ तोहूं अलाजे कीअं साईं, सो वइदो विसिरी वियो.

३ घुरिजे सायो तुंहिंजो घणो, जो पेशु अव्हांजे पियो.

४ कंहिंखे ड्रियां हीअ दांहड़ी, है बिरह बैराग़ी कयो.

५ है है नी हहिड़ो हालड़ो, ए यार ता तो रीअ थियो.

६ हीउ साहु मुंहिंजे सरीर मूं, ही ता तुंहिंजनि नाज़नि नियो.

७ निझुरे निमाणीअ जे अची, हिक ड्रींहुं लालन पाइ लियो.

८ कयो काल्ह हादीअ क़ौलु तो, मिड़नी अगियूं मूं सां इहो.

९ हूंदुसु सचू तो साणु आउं, तो पीर अब्दअल्हक़ चयो.

(सुरु तोड़ी)

न मैं ताब ना बेताब, न मैं अबर ना आफ़ताबु.

१ न मैं गूया ना मैं जूया, न सुवाल ना जवाबु.

२ न मैं ख़ाकी ना मैं बादी, न मैं आग ना आबु.

३ न मैं जिनी ना मैं इन्सी, न माई ना बाबु.

४ न मैं सुनी ना मैं शीआ, न मैं ड्रोहु ना सवाबु.

५ न मैं शरई ना मैं वरई, न मैं रंग ना रबाबु.

६ न मैं मुलां ना मैं क़ाज़ी, न मैं शोरु ना शराबु.

७ ज़ाति सचूअ दी केही पुछंदिएं, नाले ता नायाबु.



नंगिड़ा निमाणीअ दा, जीवें तीवें पालिणा.

१ मेरी आहियां मंदी आहियां, बेशक बंदी आहियां,
ढकीं मेॾा ढोलिणा, ऐब न फोलिणा.

२ पई हां पनारे, लॻी तेॾे लारे,
जोॻी नालि जालिणा, असां वलि ही आविणा.

३ यार सचल तूं लथड़े कशाले,
घूंघटि खोलिणा, ॿहु ॿहु ॿोलिणा.

नाहे ॿारोचो को ॿियो, आहे उहो जो मां रोजु ॾिसां थी !

१ वेठी हुयड़सि वाट ते, अची वसीलो थियो.

२ माड़ीअ मंझि मअूशकु ॾिठोसें, लालनु पाए लियो.

३ दरीअ मंझूं दीद ॾिठीसूं , लालन पातो लियो.

४ जतनु कजि जतनि जो, सॾु सबब सां थियो.

५ सही सुञातुमि सुपिरीं, यारु यक़ीनूं थियो.

६ खणी वञा आउं ख़ुशीअ सां, सरतियूं जे संहु ॾियो.

७ सैरु सारो ई सूरतें, पाण क़रीबनि कियो.

८ कियो सचूअ खे सरतियूं, उनहनि ख़ुमारनि खियो.

(सुरु तलंगु)



नाहे वेचारी सा वसि, हीअ ता बेवसि आहे, मियां !

१ पिरीं पंहिंजे पार जो, ॾाहा को पहु ॾसि,
तुंहिंजी कसु नी, आहे, मियां.

२ अवलि आख़िरि आहे ई, रांवल मुंहिंजी रसि,
तुंहिंजे वसि, नी आहे, मियां.

३ अन्हां ॿाझूं सुपिरीं, ॻाल्हियूं न अचनि कसि,
रूह रसु न आहे, मियां.

४ पुॼाणा पिर्यनि जे, आहे भंभोर खूं बसि,
सो तां चस न आहे, मियां.

५ साणु सचूअ तऊं सुपिरीं, होत ॻाल्हाइजि हसि,
ॿियो को जसु न आहे, मियां.

(सुरु बरवो)



पसण कारण पिरींअ जे, कया आगम अखिड़ियुनि.

१ मिलण लाइ महबूब जे, थियूं रातो ॾींहं वसनि.

२ झूर न लहे झुड़ जी, ना कॾहिं ओॻुणनि.

३ सदा सावणु तनि खे, बूंदां बसि न कनि.

४ सचू सुपिरियनि लाइ, थियूं झोरीअ मंझि झिॼुनि.

(सुरु बरवो-सारंगु)

पांधी पैग़ामु पहुचाइ, मुंहिंजा मुहिबनि खे, मियां !

१ अखिड़ियुनि खे असुलु एॾंहिं जो, वॾो ओसियड़ो आहि.

२ ॾाहा वञिजि ॾेह उनहीअ ॾे, जाते जानिब जाइ.

३ अदा ड़े साथी पारूं असां जे, पांदु ॻिचीअ में पाइ.

४ रातो ॾींहां आहे ॾिहाड़ियूं, हींअड़े खे हाइ हाइ.

५ दोस्तनि संदे दर जो असलूं, सचू सगु सॾाइ.

(सुरु कल्याण)

पांधी नेई पहुचाइ, ही नवां नियापा नींहं जा.

१ होत असां खे हेतिरो, तूं सांवल कीम सिकाइ

२ ॾींहं गुज़िरनि ॾुख में, रातियूं हिन होश हवाइ.

३ अव्हां ॿाझूं सुपिरीं, हीअ वेठी विरहु वसाइ.

४ पिरीं ॾिसिजि पाण ॾे, वायूं ही वरनाइ.

५ अङणि अची हिन जे, सगु सचू सरचाइ.

(सुरुबरवो)

पांधी मुंहिंजे यार खे, सारे चइजि सलाम.

१ चई मुका हुआ केतिरा, पिरिति वारा पैग़ाम.

२ अव्हां जे नी अचण जा, पवनि हुल हंगाम.

३ मुहबत मुंहिंजी रोज़ु अज़ल कनूं, तो सां मुहब मुदाम.

४ सचूअ जेहा केतिरा, तुंहिंजे दर ते ग़ुलाम.

५ कड़हिं कंदें असां ड्रे, अचण जा अंजाम.

६ इश्क़ अव्हांजे शोरु मचायो, हुल पवनि हंगाम.

७ ब्रान्ही गोली यार सज्रण जी, मुल्ह ख़रीद मुदाम.

८ रोज़ु अज़ल कनूं सचलु आहे, साईं संदयव साम.

(सुरु सारंगु)

पाण पुन्हूं आउं आहियां, अड़ी भेनरि भुली नाहियां.

१ थियो थियूं मुनकिरु ग़ाल्हि इनहीअ खूं,
चओ ॿियो तड़हिं छाहियां.

२ केचु भंभोरु भी वसंउं असांजी,
कहिड़े तरफ़ आउं काहियां.

३ हरिको चवे ता सहसें आशिक़,
नांउ पाण ई तूं लाहियां.

४ हिति हुति आहे सूरत मुंहिंजी,
ठाहु न को ॿियो ठाहियां.

५ पंहिंजो पाण ई सां यार सचू वे,
नींहुं इहो ई लाहियां.

(सुरु कल्याण)



पाणहीं पएव सुधि सूरनि जी, वो इश्कु लॻेव जे अदियूं.

१ सारी ख़बर वञी तनिखूं पुछिजो,
जे विरह सॼण जे वढियूं.

२ कीन लिकनि से लोक अॻियूं,
जे आहिनि ॾुखनि जूं ॾधियूं.

३ मुहिब मुसाफ़िर थिया जनीं जा,
कूकां उहे लख कंदियूं.

४ विरह विलोटिया जे वहंदियूं तनिजे,
नेणूं नीर जूं नदियूं.

५ पारूं पिरींअ जे सुणो सभेई,
लोकु भली ॾिए बदियूं.

६ अॻियूं पोयूं सभु माफ़ी कयूं,
तंहिं मुहिब सचल जूं मदियूं.

(सुरु ससुई)

पाणहीं पारूं यार, क़ासिदु मूं डे अजु आयो !

१ अचण संदे उनजे, उथी विया आज़ार,
थोरो केड्रो तनि लायो..

२ ड्रिना दिलासा दिलि खे, रहिबर राति हज़ार,
संदनि रूह जो रायो.

३ हेडे होडे न वञी, अचिजि में अइतबार,
मुहबत मिड़योई मायो.

४ अचण जा महबूब कया, पका क़ौल क़रार,
सचू तो डे हुयुनि सायो.

(सुरु ससुई)

पांहिंजा वाइदा पाड़िया, सांवल साईंअ.

१ हू जे कयाऊं असुलु असां सां, से क़ौल त यार विसारिया.

२ ड्रींहं उहे मूं खऊं ता न विसिरनि जे मूं गडु गुज़ारिया.

३ सुख़न सचाई यार सज़ण जा, से हिन साह संभारिया.

४ उनहनि कारण शहर बहर ही, मूं ता नितु निहारिया.

५ दोस्त सचूअ जा दूरि हुआ जे, से वालीअ हिति वराया.

(सुरु कल्याण)



पेर वठी जे तूं आएं यार, वंउ वठी से पेर सचार..

१ हिक हंधऊं हली बिए हंधि आएं,
टिएं डंधि लातइ लक़्ब हज़ार.

२ चोथीं जाइ सही करि सालिक,
पोइ थींदें हिति गरद गुबार.

३ बहर अइज़म जो आहीं पखीअड़ो,
वंउ उड़ामी पउ तंहिं पार

४ सौदा सूद वहायइ केई,
कहिड़ा कियड़इ वणज वापार.

५ सचू सालिक समझु इतेई,
लाहे सभु तूं मरद मयार.

(सुरु भेरवी)

पेरु असां वटि पाइ, सिकंदे साल अव्हांखे गुज़ारियमि.

१ ही हिति हिजिर हलाकु कयो, आहे हींअड़े खे हाइ हाइ.

२ हालु न मुंहिंजो को हुओ, तुंहिंजे बिरह कयो बरपाइ.

३ रागु रगुनि खे पांहिंजो, रातो ड्ठींहां आइ.

४ अचे नज़रि कोन ब्रियो, सांवल तुंहिंजे सवाइ.

५ अर्ज़ु करियां आउं कहिड़ो, तूं जानी आहीं हरजाइ.

६ सचू सगु अव्हांजो, तूं दांहं तंहिंजी वरनाइ.

(सुरुबरवो)

बिरह जी बाज़ारि, जेका ॾिसण ईंदी.

१ जेका जो ॾिसंदी तजिलो तुंहिंजो, रहंदी मंझि ख़ुमार.

२ सौदो जा कंदी सिर जो, विहंदी सा कीन क़रार.

३ चौसूल अंदरि सुरख़ीअ माइल, तेज़ु घुमे तलवार.

४ जे कंहिं चमको ॾिठो तुंहिंजो, सा सिरु ॾींदी सरदार.

५ सचू इनहीअ सीर में, आहे कुसण जी कार.

(सुरु कल्याण)

ब्रान्ही ब्रारोचल जी आहियां, वे आहियां वे आहियां.

१ पिर्यां संदे पार ड्रांहु,
आसिरो हड़ि न लाहियां, वे आहियां.

२ सूरत वारा सुपिरीं,
आं निमाणी छाहियां, वे आहियां.

३ हू ता साईं आउं ता गोली,
सड्डु न साणनि साहियां, वे आहियां.

४ ड्रींहं लंघियमि हिति केतिरा,
केच वणनि ड्रे काहियां, वे आहियां.

५ हुअणु सचूअ जो आहे तंहीं सां,
उनहनि ब्राझूं नाहियां, वे आहियां.

(सुरु कोहियारी)

ॿारोचा पएव ॿाझ, छपर मूंखे हीअं न छॾेजो.

१ महिर न लाहियो मूं पिरीं, मथां हिन मुहिताज.

२ आहे हिन आजिज़ जी, तोते लालन लाज.

३ ॻिचीअ पाए कपिड़ो, उति करियां एलाज.

४ पुठीअ लगियसि तुंहिंजड़े, मंझूं सारे राॼ.

५ पोर्हियो कंहिदयसि पिर्ति जो, हथें कंदियसि हाज.

६ घोरियां घोट अव्हां तां, सभ मॾियूं ऐं साज.

७ अव्हांजे त अचण लाइ, सचू विझे थो वाझ.

।(सुरु ससुई)



ब॒ोलि पखी परदेसीअड़ा वे,

तूं कहिड़े देसऊं आवंदईं.

१ हथि विचि मुरली पेरें घिंघरू,

गली गली वो बजावंदईं.

२ उथूं आयाहीं पेरूं लंगिड़ा,

इथां त पांवर पावंदईं.

३ जड॒हां तूं आयूं ब॒ालापिणि विचि,

हरि किसी नूं भावंदईं.

५ जड॒हां तूं आयू मद घर दे विचि,

आदि अन्तु भुलु जावंदईं.

६ लाला मोहन लाजि॒ नहीं आवंदी,

ज़रा नहीं शरमावंदईं.

७ सचू ज़ाति सफ़ाति दे विचि,

सहजऊं आउ समावंदईं.

भली करे आएं, हिति तूं घुरिजीं यार !

१ हिति तुंहिंजी घुर घणी हुई, दोस्त मिठा दिलदार !

२ जाड़े ताड़े जलवो तुंहिंजो, अजब तुंहिंजा चमकार.

३ ही भी हू भी हिकु देसु तुंहिंजो, चईं कुंडें चौधार.

४ अची थिएं हिकु सचूअ सां, लाहे बियाईअ बार.

(सुरु ससुई)

भेनरि ही भंभोरु, असीं छडे वेंदासूं.

१ वसि न आहियां पांहिंजे, पूरनि कयड़ो पूरु,
हिति रती न रहंदासूं.

२ जाइ अकुल जी नाहि का, इश्क़ डेखारियो हिति ज़ोरु,
उहो वठी वेंदासूं.

३ पोरहियो कंदियसि पिर जो, छडे बियो तक तोरु,
असीं जा की जीअंदासूं.

४ काकियूं वञी केच में, लाहे हींएं जो होरु,
डुख डोरापा डींदासूं.

५ सचू डिठे सज़णनि, शौक़ मचायो शोरु,
तन जे पखी पहंदासूं.

(सुरु बरवो)

मुलां मारि म मूं, सजणु ड़िसां कीन सबकु पढ़िहां ?

१ आदम कनूं अगे हुयासि, आदम ज़ाति न हूं.

२ अलफ़ु असां नूं यार पढ़िहाया, बे दी बांस न बूं.

३ शाह दराज़ें सचलु वसे, मन जो महिरमु तूं.

(सुरु तलंगु)



मुहबत इश्क़ मौलों जे, घणा से घोट घाया हुआ,
हज़ारनि साह सांवल तऊं, कनीं घोरे घुमाया हुआ.

१ कनीं सिरु साहु साजन लइ, मथे सूरीअ संबाहिया हुआ,
विरह जे वाट ते वीरनि, कुल्हनि खूं कंध कपाया हुआ.

२ थियो तनि महिणो मोटणु, तिखे कंहिं ताव ताया हुआ,
मथा मइख़ाने ते मस्तनि, वटीअ जे वट वढाया हुआ.

३ इनहीअ पिड़ में पहिलवाननि, जो जोशऊं जीअ जलाया हुआ,
खंया जे मौज मुहबत जे, उहे हिन आर आया हुआ.

४ ड्रिसो जे नींहं जे नाते, कनीं जा सिर गंवाया हुआ,
सचू ड़े थी सिदिकु तनि तऊं, जनीं ही रंग लाया हुआ.

(सुरु बरवो)

मुंहिंजी अगहीं लगी ना ता हाणे लगी,
दिलि अलो अलो तंहिं यार सां.

१ रोज़ु अज़ल खूं अखियूं लायूं सें,
दोस्त मिठे दिलदार सां.

२ केई दानाअ दीवाना कयाईं,
चशमनि जे चमकार सां.

३ पिरीं असां वटि पेही आयो,
सूरत जे सींगार सां.

४ दोस्तनि जे दरि अची पियसि,
असुलु सचे इअ्तिबार सां.

५ जेकी थिए थो जोश वारनि सां,
सो न थिए हुशियार सां.

६ नाज़ नियाज़ जे नींहं वारनि खे,
तिक कयो तलवार सां.

७ सिरु सचूअ कयो सदिक़े साढईं,
अकुलु छडे इख़्तियार सां.

(सुरु बरवो)

मुंहिंजी ज़ारी ज़ारी, सुहिणा साईं तोसां.

१ मइलूम तोखे ॻाल्हि असांजी,
साईं सॼुण ता सारी सारी.

२ हीअ ता हीणी बाउ वहीणी,
बिरहु अव्हांजो बारी बारी.

३ दोस्त हिंएं में यार रमाया,
घोट न विझिजि घारी घारी.

४ असुल लाकूं आहि अव्हां सां,
यार असां जा यारी यारी.

५ तरफूं तुंहिंजे साईं सचूअ खे,
आहि ॻिचीअ में ॻारी ॻारी.

(सुरु बिलावली)

मुंहिंजो हींअड़ो होतनि साणु,
कहिड़ी करियां ॿी आउं ता ॻाल्हिड़ी ॻाल्हिड़ी.

१ विन्दुर सन्दी वाट ते, पुर्ज़ा कंदियसि पाणु.

२ अची लॻो मूं ओचितो, ॿारोचे जो ॿाणु.

३ दुआ करेजो जेड्यूं, शाल मोटे मुईअ जो माणु.

४ वियड़ो दरदु फ़िराक़ जो, ॾेई ॾुखीअ खे ॾाणु.

५ अङणि ईंदो तांहिंजे, सचू सो सरवाणु.

(सुरुबरवो)

मूंखे कांध बिना हीअ काकि, कौड़ी आहे काकियूं.

१ सोढल ब्राझूं सर्‌तियूं, मरे थी मुशताक़.

२ मुंहिंजो साहु सुधीरु थिए, अचे जे ओताक़.

३ सफिरी आहे सोन खूं, ख़ासी ढट जी ख़ाक.

४ सुधि अची लहु, तुंहिंजे चूर कई चौताक़.

५ विझी वेचारीअ वयो, अदियूं रे ओलाक.

६ तनु सचूअ जो इश्क़ अव्हां जे, चीरे कियड़ो चाक.

(सुरु मूमल)



मूंखे त मेहर यार जा, था पलि पलि पूर पवनि,
पलि पलि पूर पवनि, मूंखे सारियो सूर वञनि.

१ यार लख हज़ार, माण्हू महिणा था ड्रियनि,
झोलीअ पाए मूं झलिया, मन बिया बि ब्रु टे ड्रियनि.

२ तन में ताकियूं मन में मेख़ूं, हंयूं हबीबनि,
उखेलणु अहिंजूं थियूं, जेके विधियूं वेंझारनि.

३ सचल सोज़ रोअनि रोज़ु, इहा आदत आशिक़नि,
जनि खे इश्कु अल्लह जो, से कीअं सुख सुम्हनि.

(सुरु भेरवी)



मूंखे तुंहिंजी सार संभार वो,

छडि रुसामां तूं, आउ मुंहिंजा यार.

१ डोहु न कोई तो डियां, आहे मूं ई सिर मयार.

२ सिक सोराखां मूं कया, हींअड़े मंझि हज़ार.

३ मोटु मरां थी मींधरा, बिरहे चाड़हियइ बार.

४ वेठी करे काकि में, हीअ वेचारी वीचार.

५ सचू से ई आइया, जे दिलि घुरिया दिलदार.

(सुरु मूमल)

मूंखे न विसारि, वो ढोलिया, आउं ता तुंहिंजड़ी आहियां.

१ नांअ साईंअ जे असां निमाणनि ड॒े, खणी तूं नेण निहारि.

२ पिरीं वड़अऊं पांहिंजे, गडु ग़रीबि गुज़ारि.

३ कयव असां सां जे यार पियारल, पंहिंजा से वइदा पाड़ि.

४ अङणि असांजे सिघो की ईंदें, वाली सो कहिड़ीअ वारि.

५ दर पंहिंजे जो दिलबर साईं, सचू सो सगु संभारि.

(सुरु झंगिलो – भेरवी)

मूंखे होतनि हाणे, कोठे पंहिंजो कयो !

१ जत घणा बिया जग में साईं, मुंहिंजो होतु आरियाणी,
कंदियसि कोन बियो.

२ लखें पुछनि पिरियनि खे, आउं ता केर निमाणी,
संदनि नींहं नियो.

३ जेही तेही दरि दोस्तनि जे, आशिक़ि हीअ अघाणी,
सारो कमु थियो.

४ कयाउं किनारे पांहिंजे, हीअ ता पाणूं ज़ाणी,
जड़ो जीउ जियो.

५ पिरिट्‌ ने कयो पांहिंजो, सचू सगु सुञाणी,
विचूं विरहु वियो.

(सुरु बरवो)

मूं में ऐब अपार, सजु़ण तुंहिंजी ब॒ान्हड़ी आहियां.

१ ब॒ान्हनि जी आऊं ब॒ान्ही आहियां, सारी सभु ज॒मार.

२ हुआं हमेशह होत सां, शाल न थियां धार.

३ ओछणु कंदियसि अखियूं, पथरि कंदियसि वार.

४ पाण तोईं तूं सदिके, सिसी साणु कपार.

५ साहु सचूअ जो सोघो कियड़ुव, रखी याराणो यारु.

(सुरु ससुई)



यार तोसां मुंहिंजी ज़ारी, आहे सौ लख वारी मियां !

१ विंदर जे वणनि में, वाझ विझी वेचारी,
सा ता मुहबत मारी.

२ ही ता हालु हक़ीर जो, अची ॾिसु आरी,
खंयुमि बिरहु बारी.

३ अज़ल लाकूं आहेई, यार तोसां मुंहिंजी यारी,
पातमि ॻिचीअ ॻारी.

४ सूर तुंहिंजा सुपिरीं, चुकीअ खे चौधारी,
विझिजि घोट न घारी.

५ आहे हथि हबीब जे, ॻाल्हि सचूअ जी सारी,
कंदा नी पोइवारी.

(सुरुबरवो)



रातिं पिरींअ काथे पेई, अड़े साथी सुधि ड्रेजो.

१ पुज़ाणा पिरींअ जे, हालु असां हिति हेई,
साणु थकीअ हिकु थेजो.

२ पसण कारणि पिरींअ जे, कांग उड्रायमि केई,
नालि वठी हीअ नेजो.

३ अर्ज़ु आरियाणीअ खे, नांउ धणीअ ही नेई,
ब़ांहूं ब़ुधी चढ़ियां चेजो.

४ सचूअ पारां साथियो, खेनि ड्रोरापा ड्रेई,
पेरें पांधियो वञी पेजो.

(सुरु बरवो)



राति मुकुमि रोई, सारे सलाम संघारनि खे.

१ अखियूं अबाणे पार ड॒े, बीठियूं झुड॒ु झोई.

२ अबाणनि जे आसिरे, लीड़ूं थियमि लोई.

३ वंडिनि विरछनि पाण से, ड॒ौंरनि जी ड॒ोई.

४ लिखी काग़ज़ु मूं विधो, पखीअ खे पोई.

५ के ड॒ींहं ढोयमि खेत सां, आब भरे ओई.

६ अव्हां ब॒ाझूं कोनको, कल लहे कोई.

७ मारू मिलंदइ मारुई, सचल खे सोई.

(सुरु जोग॒)



लख करियां शुकिराना, राज़ी थियो यारु मूं ते.

१ सूर थिया ड़े वो सरतियूं, वठी से राह रवाना.

२ ॾींहं घणा ई हुआसीं सरितियूं, दोस्त ॿाझूं दीवाना.

३ राज़ी थियण जा वो आया असां ॾे, पिरियुनि जा परवाना.

४ अची लॻा वो सिरि असांजे, ख़ुशीअ जा शादिमाना.

५ कया सचूअ ॾे दोस्त अचण जा, हारियूं ड़े हावाना.

(सुरु झंगिलो - बरवो)



लंघे वयूं काल्ह क़तारूं, कूंजड़ियुनि जूं केच वणनि ॾांहुं.

१ कंदियूं वयूं केच ॾे, तरहें तरहें तंवारूं.

२ वेचारियूं वलड़ कयो वड़कनि, फुटी थियूं से फारूं.

३ वलरु कूंजड़ियुनि जो, कंहिं अन्दोह उॾारियूं.

४ उनहनि जे अफ़सोस जूं, पवंदियूं वयूं पचारूं.

५ उठनि ग़ाना पटि जा, मोतिनि मड़हियूं मुहारूं.

६ सचू हलियो सोज़ में, लाहे लोक मयारूं.

(सुरु बरवो)



लिंव मूं सां जा लायव, यार वेढ़हे हिन वेही !

१ दरदमंदीअ जी दिलड़ी, दिलवर घोट अखियुनि सां घायव,
गा॒ल्हि करियां ब॒ी केही.

२ मुश्ताक़नि खे मुहिब मारीं थो, तक इहा ई आयव,
जेही वणेव कयो तेही.

३ गा॒ल्हि इनहीअ जी सुधि न मूं खे, पाण पिरीं पुरझायव,
रम्ज़ गुझीअ दिलि रेही.

४ पारूं पंहिंजे केई क़ासिद, हिन डे॒ होत हलायव,
डे॒ह गडि॒या ज॒णु डे॒ही.

५ दिलि सचूअ जी सुहिणा साईं, दीदनि साणु दुतारियव,
नींहं अव्हांजिड़े नेही.

(सुरु कल्याण)

शइ आहियां काकियूं कहिड़ी, जा समुझी न ॼाणां.

१ बअ॒ज़े भांया पुतिली, या आहियां गुॾीअ ॾोरि,
या गोइ आहियां हथि यार जे, या वांगीअ वांगुरु ज़ोरि.

२ या ता महिलु आहियां, जंहिं में शाहन्‌शाहु,
ॿालियूं करे केतिरियूं, थो दरूनऊं दानाहु.

३ या ता घोड़ो आहियां, जो हलाए हसवारु,
या ता मौज दरियाह जी, जा ॿाड़े थी ॿाहारु.

४ या मेंदी गुलु ता आहियां, जंहिं अंदरि लालाई,
या आहियां गुलु गुलाब जो, जंहिं सर में सुरहाई.

५ या ता चशिमो आहियां, जो अबर भरियो आबु,
तंहिं में सायो सिज जो, पाछोई महिताबु.

६ या ता पाछो ई हक़ जो, आउं असुल खूं आहियां,
जंहिं में ॻाल्हि नांहि ता, सो भी ता नाहियां.

७ ॻाल्हि सचूअ ता समझी, लवुं हादाईअ इहाई,
ता ग़ैरु ख़ुदा जो नाहुएं, आहे साहिबु सदाई.

(सुरु सारंग – पीलो)

शाहु थियो सैलानी, न ॼाणां केहीअ ॻाल्हि खूं.

१ थी गदागर करे गदाई, शरफु छडे सुल्तानी.

२ सूरत इनहीअ केरु सुञाणे, है है सभु हैरानी.

३ ज़ाहिरि पंहिंजी ज़ाति कयाऊं, जोड़ करे जिस्मानी.

४ भोल न ॿिए कंहिं अव्हीं भुलिजो, ऐन अथव इन्सानी.

५ उहो अंदरि उहो ॿाहिरि, केरु थींदो कुरबानी.

६ सचू सिर्र 'सिरे' करि ॼाणीं, जानि जुसो सभु जानी.

(सुरु आसा)

सचु था मर्द चवनि, कंहिंखे वणे न वणे,
कूड़ी दोस्तीअ जो दमु, बणे न बणे.

१ सचु त पाण धणीअ पैदा कयो आहे,
अंगु त आदम जो ॿिए कंहिं जोड़ियो नाहे,
सचु चयो मन्सूर निए चड़हियो फाहे,
अहिड़ा बार बिरह जा ॿियो खणे न खणे.

२ सचु त मुरबी मुहिब मुजीब चयो,
अना अहमद ऐन अजीब चयो,
असां त आमनि ख़ासि नसीब चयो,
ॻुणे यारु वियो बियो ॻुणे न ॻुणे.

३ न का ऐब सवाब जी जाइ आहे,
न का त नींहं नवाब जी राइ आहे,
इहो ता इश्क़ु हुसन हरि जाइ आहे,
ॼुणे यारु वियो ॿियो ॼुणे न ॼुणे.

४ सचु त सचल साईंअ जी ॻाल्हि सची,
मुए त मुहबत वारा कंदा कीन कची,
रंग रम्ज़ इनहीअ में वयो रूहु रची,
सॾिड़ा मालिकु सुणे ॿियो सुणे न सुणे.

(सुरु भैरवी)

सचू नांउ थो सड़ाएं, चउ त काथे तूं आहें.

१ ज़ाणी वाणी पाणखे, कीअं थो भोल भुलाएं.

२ ख़ुदीअ वारे ख़ियाल खे, राह इनहीअ थो रुलाएं.

३ पेर मथो आङिरियूं, नांअ ब्रिया थो रखाएं.

४ काथे पैदा न थिएं, काड्हूं वरी तूं आएं.

५ नांउ इहो नापैद थियो जो, सचू असुल खूं तूं आहें.

(सुरु कल्याण)

सरितियूं ॾियनि सलाहां, चितु तूं चरिखे लाईं.
आउं कतां की कांग उॾायां.

१ रातो ॾींहां रुआं उनहदि लॻि, पिरीं जे थियमि पराहां.

२ दिलि जमीअत तड़हिं की थींदी, जड़हिं ईंदा के होत अॻाहां.

३ अदियूं उनहीअ जूं वेठे अचण जूं, रोज़ु निहारियां थी राहां.

४ वाली वराए वरी भंभोर ॾे, सुणी असांजूं आहां.

५ कयूं क़बूलियति सभेई सचूअ जूं, साईं अरज़ इलाहां.

(सुरु खवो)

सलि ड़े सौदागर, तूं ता आएं वठी हिति सौदो कहिड़ो.

१ हुतऊं आणे हिति कीअं लिकायइ, खणी मुश्क अतुर.

२ होको हिति ब्रियो केहो घुमायइ, करे ता गुम गुहर.

३ हहिड़े जवाहर जी हिति ता कंहिं सां, कयइ कान ख़बर.

४ पंहिंजे अगियूं कयुइ, मिड़योई, सारो मुल्क शहर.

५ छा खूं तो ता शाह छिपाई, हीएं सां हधि मुहिर.

६ लिखी ड्रिना तो केतिरा, मुलनि खे मुह्ज़र.

७ लालां लखें कयूं पधिरियूं, सचू वे सरवर.

साड़े घरि जानी आया, जी आया भली आया.

१ अपना वइदा आप पारि्योनी, असां ता दरसन पाया.

२ विसरि ग़योसी फ़लक हिजिर दा, ग़ल सजन चलाया.

३ माफ़ मदायां कुलु कीतोनी, सानूं पिरी परचाया.

४ अङणि मेड़े आया सवेले, सानूं सजनि नालि बु़हाया.

५ सचू जंहिं दा सगि असुलु दा, सिर तंहीं दा साया.



सारियो ड्रींहं रोआं ड़ी, हुयसि जेके होत पुन्हूंअ सां.

१ बुधण वारो नाहि को, जंहिं खे हालु चवां ड़ी.

२ क़ासिदु अचे को ओड्रहूं, पेरें तंहिं पवां ड़ी.

३ डुखायो था ड्रील खे, अदियूं अज़ु अन्हां ड़ी.

४ उनहनि ब्राझूं सरितियूं, निति निति सूर नवां ड़ी.

५ मारियो महिबूबनि जे, तलब नाहि तन्हां ड़ी.

६ ग़रज़ु न रखां लोक जो, हिकु साईं हुवनि संवा ड़ी.

७ सचू ब्राझूं सोज़ जे, ब्रियूं लातियूं कीन लंवा ड़ी.

(सुरु ससुई)



सिरु ड्रिएं तूं सिरु ड्रिएं, जे इश्क़ में थो सिरु ड्रिएं,
थियड़ा वड्डा तालिअ तोई जा, जानि जिस्म खूं जे ड्रिएं.

१ थो उमिरि नाहकु विञाईं, ग़ैर जे ख़्यालात में,
मुहब बी तोखे मञिनि, जे नींहं जी बाज़ी निएं.

२ महवु करि ब्री ग़ाल्हि कुली, मुड्डु म चड़हु मैदान ते,
जीअं चवां थो, सा मञिजि, ही इश्कु ब्रुधु आहे इएं.

३ ग़ाल्हि करण ऐं थियण में, आहे तफ़ावतु ता वड्डो,
हाल सां हमेशगीअ जे, पुरि इहो पियालो पिएं.

४ मौतु मोटी ना पुछे, तुंहिंजे इहा घर जी ग़ुली,
'क़ब्र नु मूतू' खूं पुज्राणूं, नी वरी जानी जिएं.

५ ब्रियो मुबदलु करि सभोई, ख़्याल पउ तोहीद जे,
जीअं कयो मन्सूर शह, ता आख़िरी तूं करि तिएं.

(सुरु भेरवी)



हालु अची ड्रिसू, वहे थो पिंबणियऊं पाणी,
पाण ज़ाणीं !

१ आउं कनीज़क मुल्ह ख़रीदिणि, साईं तूं पाण सुञाणीं,
पाण ज़ाणीं !

२ सुधि लहिजि तूं सिघड़ी तंहिंजी, जानी कयव जोगियाणी,
पाण ज़ाणीं !

३ ड्रेई ड्रेखारे पाण छुपायुव, भली इहा तोखे भाणी,
पाण ज़ाणीं !

४ रोज़ु अज़ल खूं दर तुंहिंजे ते. वाली सा हीअ विकाणी,
पाण ज़ाणीं !

५ सीने अंदरि यार सचूअ जे, सिक संदुइ सामाणी,
पाण ज़ाणीं !

(सुरु झंगिलो)



हिको ड॒ोहु ब॒ियो सवाबु, अथई इश्क़ जो हजाबु.

१ वज॒ाईंदे वर॒हिय थिया, अगि॒यां रिढ रबरबु.

२ पिरीं वसे पाण में, कढी ड॒िसु किताबु.

३ वादीअ में वहिदत जे, आहे कोन हिसाबु.

४ जियणु आहे जग॒ में, बिनां इश्क़ अज़ाबु.

५ महंदां महिबूबनि जे, तूं कुसी थीउ क़बाबु.

६ मुहबत जे मैदान में, झलि तिखाड़ा ताब.

७ माही सिकायनि से, हणे थो नेज़ा नींहं नवाबु.

८ सचू सिकायनि जो थो, खोले नींहुं नक़ाबु.

(सुरु बिलावली-झंगिलो)



हिन ग़रीबि जो हालु, तोखे मइलूम आहे.

१ सदिक़े कंदियसि सिरु साइन तऊं,

खियो सभु मिलक में मालु.

२ दोस्त अव्हां रीअ देस में,

जीअणु आहे जंजालु.

३ चई बुधायां केतिरो,

अरियाणीअ अहिवालु.

४ मञु सचूअ जो सुपिरीं,

साईंअ लगि सुवालु.

(सुरु मालकोंस)



हीउ छडेजि, हू वठेजि, मतां ॿी ॻाल्हि पुछेजि.

१ दुईअ वारे दाम खूं, पहिरियों तालिब पाणु कढेजि.

२ मुर्शिद जीअं फ़रिमायो, वाक़िफु सो ता ॾसु वठेजि.

३ सिरु सही करि पांहिंजो, बिया आॾाणा कीम अॾेजि.

४ लारे लगु न कंहिं बिए, आशिक़ इनहीअ पंधि पएजि.

५ वेसह वारीअ वाट ते, सचू वे तूं सिरु सटेजि.

(सुरु ससुई)



हुतऊं हली हिति आएं, करण वापारु ड़े तूं वणिजारा.

१ विचि बाज़ारि जे चौसूल विच में,
पिड़ी पिर्‌ति जी पाई.

२ शाह पंहिंजे सां वाइदो जो कियड़ुइ,
ड्रींहं समझी चितु लाईं.

३ शाहूकारीअ जी कोठी जा पातइ,
सा वेहिजि कीम विसाईं.

४ वणिजु विरह जो थिए मोती लालां,
ब्री घोर सा कीम घुमाईं.

५ सौदो सच जो आहे सचू हीउ,
कूड़ु कंगण कचु खाईं.

(सुरु झंगिलो – जोग – कल्याण)



हुति तां केर हुयासि, मियां वो !

हिति थी केर आयसि, न ज़ाणां.

१ नांउ बियो हिति हो मुंहिंजो,

हिति ब्रिए नांउ थियासि.

२ अचणु न हो हिति मुंहिंजो,

पर कंहिं ता ख़्वाहिश खंयासि.

३ हुति हुयसि मअशूक़ीअ में,

हिति आशिकु थी आयासि.

४ है है हुई हिति कानका,

हिति मंझि परूड़ पियासि.

५ सचू सारो वो सचु थियो,

विचऊं 'आउं' वियासि.

(सुरुजोग)



हो असां वटि यार तूं, आहे हिति असां जो हालु ही.

१ उबाणिको आहियां घणो, तो रीअ पिरीं परदेस में,
आउ मिड़योई मइलमु करि, आशिक़ संदो अहवालु ही.

२ आहे ओसीड़ो तांहिं जो, शब रोज़ु अखिड़ियुनि में मियां,
जानी संदइ मूं जाग़ंदे, आहे ख़्वाब में बि ख़्यालु ही.

३ दोस्त तुंहिंजे दर उते, दूंहीं विझी वेही रहां,
मुंहुं ड्रेखारिजि मुहब मूंखे, न त मथऊं विबालु ही.

४ दर्दमंद जे दरि पेही आउ, दोस्त दिलि खुशहालु करि,
सदिक़े करियां सिरु साहु तां, छा मिल्क ऐय बियो मालु ही.

५ वेही निहारियां वाटड़ी, तुंहिंजे अचण जे लइ मियां,
लहु सुधि संदियमि साजन अची, न त आहे जियणु जंजालु ही.

६ पाणूं परे न मूंखे करियो, के दोस्त दिलदारियूं ड्रियो,
हो तूं सदाईं साणु मूं, आहे सचूअ जो सुवालु ही.



(सुरु भेरवी)

होत अचण जी का करि मियां, पांधी रोजु पुछायां थी.

१ रातो ड्रींहां रूह खे, सिक अव्हांजड़ी सरि मियां,
तो लइ हिति कांग उड़ायां थी.

२ सिर तोईं तऊं सदिक़े, घोट अचीं जे घरि मियां,
घोरियो पाणु घुमायां थी.

३ ईंदियसि अहिड़े हाल सां, दोस्त अव्हांजे दरि मियां,
ग़िचीअ पलउ पायां थी.

४ पिरीं पारूं तांहिंजे, धी वेचारीअ जी वरि मियां,
वेठी डुख वसायां थी.

५ सारो मतलबु मूं थिए, पिरीं अचे कंहिं परि मियां,
हिति पोथियूं पटायां थी.

६ सचूअ उते सुपिरीं, दस्तु मुबारकु धरि मियां,
संदियव यारि सड़ायां थी.

(सुरुबखो)

होत ड॒हूं हाणे आयूं, मूं ड॒े ख़ुशख़बरां हे !

१ अची अड॒ियूं था ओड॒ड़ियूं, जाए अव्हांजिड़े जायूं.

२ छड॒े शहर भंभोर खे, पेर वरी एड॒े पायूं.

३ थियूं जियारिनि जेड॒ियूं, इहे वेचारीअखे वायूं.

४ सचूअ संदियूं दांहड़ियूं, दोस्त वरी वरनायूं.

होतु अची हथ ड्रींदो, भलो जेड़ियूं,
मूं हिन निमाणीअ खे.

१ पिरीं वड़ऊं पांहिंजे, छपर तां न छड्रींदो.

२ ड्रिसंदो अखड़ियुनि सां, नालि निमाणी नींदो.

३ पाणू पासे न करे, गोली साणु गड्रींदो.

४ पांधिनि पचारूं कयूं, आरियाणी अजु ईंदो.

५ अङणि आसरवंदि जे, पखा पाण अड्रींदो.

६ केचिनि संदो काफ़िलो, लोऊं ता न लड्रींदो.

७ साजनु संगति पांहिंजीअ, सचू शाल सड्रींदो.

(सुरुबरवो)



सचल जा

बैत

१

अजु पुणि पूरब पार ड्रे, ककर ककोरिया,
सारंग सुर सुराइता, साझुरे सोरिया,
सुर मंडल ऐं सारंगियूं, चंग चङा चोरिया,
उभ उते ओरिया, तबल तारूं तेज सां.

२

अजु लातियूं कांग लतियूं, से के सुणो सर्तियूं !
जो कहण सां कुहियो विझे, सेड़हे मंझि वतियूं,
संदियूं राज़ रतियूं, थो पिणु करे पधिरियूं.

३

अञा आधूती, आहिनि अकीचारु,
अविद्या अहंकारु , भञी जिनि भोरा कया.

४

अञा इबारत, लिखण लगुसि पिरींअ ड्रे,
रुअंदे भरियूं रतु, ओतण ब्रुई अखियूं.

५

अलस्ती आवाज़ु को मुंहिंजे कनि पियो,
हिरदे अंदरि हीर जे, आहे कोन बियो,
मुरलीअ मस्तु कयो, जोगीअड़नि जे जेड़ियूं !

६

अवलि आंधी आई, पोयां झुड़ु झझो,
नको ओलो आसिरो, नको ओट अझो,
डुहिलियुनि ड्झो, परवर ! थिजि पटनि में.

७

अवलि भैरे भञु , सचल बंद ख़ियालाति जा,
तंहिं पुजाणो वञु, हलाजी हैरत में,
अदबु अथी ओट, ओटि त अगाहों थिएं,
मारि नगारे चोट, आशिक़ अनालहक़ जी.

८

असां पिरियुनि विच में, जरु वहे जारी,
हिकु कड़िको कुननि जो पवे, बियो वीर ड्रिए वारी,
हुति साजन जा सारी, सा दहिली कीन दरियाह खूं.

९

आउ राणा रंगु लाइ, मोटी काकि कंधियुनि खे,
नामियां ! नांइ ख़ुदाह जे, पेर वरी हिति पाइ,
सोढा संदइ साइ, आउं वेठी कांग उड़ायां.

१०

आयो काल्ह क़लमु, मूं ड्रे महबूबनि जो,

त 'दोस्तीअ जो दमु, कड़हिं तूं न विसारिएं'.

११

आहोनि अकीचार, अन्तरमुख आधूत,
पूरब से न पुरिया, नकी कनि परचारु,
अठ ई पहर अछ में, रहनि से गुम ग़ार,
सचल संस्कार, सन्सा तिनि विञाइया.

१२

आहे रीझ रूअणु, आयलि ! अखिड़ियुनि खे,
हुई तिनि हुअणु, जिनि खे असर ओहीरनि जा.

१३

आहे सदाईं सोरठि जे, सुर में सिर जो सुवालु,
तन्दु ॒ तंवारे हड़हीं, माया मड़ियूं मालु,
वहिद जो विसालु, सदा सोरठि सुर में.

१४

इश्कु ॒हुबत ॿाझूं ॼाणी, ॿी सभु राह खिलाफ़ी,
बुज़ुर्ग। काणि दीन जे कनि था, तिल्सम सभु तलाफ़ी,
सचा हरग़िज़ि से न थींदा, सचा सूफ़ी साफ़ी.

१५

इश्क़ु थी इन्सानु, आयो सैलानी सैर ते,
सूरत में आदम जे, आदमु दमु महमानु,
सचा तूं सुलतानु, सतिगुर सचु सुणायो.

१६

उथी कमरि ॿधु, लोचि त लहीं सुपिरीं,
हाड़े वारो हंधु, ॾिसीं अखिड़ियुनि सां.

१७

उमर अबाणनि रीअ, आउं ता कोझी आहियां,
लोई हड्डि न लाहियां, निशानी जा नींहं जी.

१८

उमिरि अजाई गुज़िरी, अछा थिया इज़्हार,
ज़ारियूं कयो सुपिरीं ! रुआं ज़ारूं ज़ार,
मथिमि आहे मयार, होतनि हरफ़ु न हेकिड़ो.

१९

उमिरि अजाई गुज़िरी, कारनि मटियो रंगु,
मूं निहारणु न थिए, सांवल सारो संगु,
हिन निमाणीअ जो नंगु, आहि अव्हां ते सुपिरीं.

२०

उमिरि अजाई गुज़िरी, हहिड़ा हाल थियामि,
चुपि चुपातीअ सरतियूं ! वटूं होत वियामि,
हू जे डूंगर डाखिड़ा, फोलणु सभु पियामि,
अजु सुबुह ईंदामि, कंदा वरि वेचारीअ जी.

२१

ओलहि सिजु न उलहे, मतां थिए अवेर,
मेड़े वेंदइ मग़िरबी, तारीकीअ में तेर,
छड़े वेंदइ छपरें, ढूंढनि संदा ढेर,
मर्द ड्रियनि था माम में, माथेकी मथेर,
वञ्ञु अथी विझु पाण में, हेकिड़ाईअ जी हेर,
नासूदी नाख़ैर, निपटु पोइ नेबूदु करि.

२२

कचो सचो कीन थिए, तोड़े अचनि रंग,
सचे संदे संग, कचा सचा थी विया.

२३

कडुहिं डेहु डिठामि, थे साइत साइत सूमिरा,
मारू काल्ह मलीर में, पर परे अजु पियामि,
आहे कीन उन्हनि रीअ, अखिड़ियुनि खे आरामु,
सदा वतां सिकंदी, सांभण सूर थियामि,
से पिणु कीन वियामि, जिनि सां गर्‌हियमि गाल्हिड्यूं.

२४

करे लंघिया लोक मां, लाहूती लोड़ा,
घोड़े डे घोड़ा, करि मनु मस्तानु विया

२५

कशाले मूं कमु, थोरे ड्रींहें मूं थिए,
सोजु गुदाजु एें ग़मु, रहबरु थींदो राह में.

२६

काकि न करि कारी सोढा ! लहु समाउ,
हेकर हेडे आउ, मुंदूं मोटी आयूं.

२७

काकि पुछंदा कापिड़ी, वडीअ वेल विया,
लुंडाणो लंघे करे, कंहिं परिएं पंधि पिया,
उते थाकि थिया, जिते 'मूं तूं' नाहि का.

२८

काकि पुछंदा कापिड़ी, विया अधो-ब्रन्धि,

वञी रसिया उन हंधि, जिति 'मूं तूं' नाहि का.

२९

काकि लुंडाणो लंघिया, अजु लाहूती लाल,
ओरे हद्धि न अटिकिया, थिया परांहें ख़ियाल,
हदूं भञी हलिया, जिनि खे हद भञाए हाल,
तिनि सुरति नका संभाल, वञी वेझा थिया विसाल ख.

३०

कापिड़ी कन फाड़, आयलि ! अजु लंघे विया,
मस्तु करे विया मन खे, मुरलियुनि सां मणियार,
तनि जोगीअड़नि जी जाड़, मूं खां मुए न विसिरे.

३१

कापिड़ी मूं काल, अञा डिठा डेह में,
है ! है ! मुंहिंजे हाल, जो साणुनि थियुसि न संगिती.

३२

काफ़ कशाला केतिरा, मारणु मथे हूं,
छोरीअ खे हिति छपरें, छडे विएं छाहूं ?
तोखे करे सुपिरीं ! थी दर्दमंदि दांहूं,
तूं अचिजि अगाहूं, ना त दोस्त ! थी दमु डियां.

३३

कांगा ! चउ कीअं, सरहाई डिठई सुपिरींअ,
हाल असां हिति हहिड़ा, के हुति भी हुवा हीअं,
झाम डिए झुडु जीअं, तीअं थी ओत अखियुनि मां ?

३४

कीम महिना लाइ, आउ, भला ! भुली आहियां,

अची अखिड़ियूं खणी, सचूअ खे सचाइ,
जानी ! जोड़ियमि जाइ, तो लगि अखिड़ियुनि में.

३५

के था चवनि सूफु, के था चवनि सेबु,
इन में कहिड़ो ऐबु, फलु मिड़ियोई हेकिड़ो.

३६

कोटां जाजिक जां, कढी मंगते मुहड़ि,
घरि घरि बुधी घोट जी, रूद संदी रड़ि,
लोकनि लगी बड़ि, बुधी बीजल बोलियूं.

३७

गोलनि गडु गुज़रानु काकियूं ! कंदियसि केच में,
आरीअ थिए अरमानु, मन डिसे हालु हक़ीर जो.

३८

घणा डींहं लगाइ, छाहूं कांग क़रीब जा,
के दम आडो दोस्त जे, भली करे भगाइ,
ताकी तन तगाइ, मतां झोरीअ मंझि झिज़ी मरां.

३९

घिड़नि जे घेराउ, तांघो इश्कु तिनि जो,
जिनि खे इश्क़ अलीलु कयो, से इंदियूं अवतड़ाउ,
जे सूर चखंदियूं साड़, मेहरु से माणींदियूं.

४०

चडी गा़लहि चवांइ, सा सुणु मियां मेंधिरा !
आउं तुंहिंजी आहियां, तूं मुंहिंजिड़ो आंइ,
हीअ निधर तुंहिंजे नांइ, आहे विकाणी वलहा !

४१

चङो गूंदर ग़मु, जे मूं, पुछो जेड़ियूं !
मंझि कशाले कमु, आहे विरिह वारिएं.

४२

चड़नि जे चूंगार, मुंहिंजो चितु चरियो कयो,
रातियां ड्रींहां तन में, तिनि जी अथमि तार,
मेंहुनि ऐं मेहार, सन्दी सिक सरीर में.

४३

चड़हियो लईअ लाम, थो ब्रोलियूं ब्राझारियूं करे,
ड्रिए सनीहा सजणां, टिड़ियो मथे टाम,
माड़ियूं मारे माम, थो ड्रिए लिकाए लोक मां.

४४

छा जो शकु गुमानु, सभका सूरत तुंहिंजी,
मतां करीं अरमानु, ग़ुहिला ! इनहीअ ग़ाल्हि जो.

४५

जहिड़ो भांयुमि पाण खे, तहिड़ो आहियां आउं,
बाक़ी रहियो नांउ, सचू मूं साहिब जो.

४६

जा न चवण जहिड़ी, सा मां चवां कीअं,
क़िसो आहे हीअं, ही ऐं हू हिकु थियो.

४७

जां जां मिलां न होत, तां तां, माइ ! न मूं मरां,
मादरि ! ताईं मौत, इहो अथमि आसिरो.

४८

जिनि थे पालिया पेट, कुमिनि कालूरनि सां,
से ता तेल फुलेल सां, थियूं मिलाइनि मेट,
ज़ामु जवाहर जी करे, थो उन्हनि पारि उमेट,
कई लाखीणी लेट, मीरण ज़ाम मुहाणनि ड्रे.

४९

जिनि मां बुछिड़ी बांस, आई आम ख़ल्क़ खे,
तिनि सां ज़ाम जा, एड्रा थिया इख़लास,
अतुर अंबीर मुश्क जा, वगें ड्रियनि वास,
लखें कनि लिबास, ज़रीअ ऐं ज़रबाफ़ जा.

५०

जे गूंदर गोशु न कनि, ख़ुहि पवनि से सरतियूं,
जिनि संगति साणु सुखनि, से पाणू होत परे कयूं.

५१

जे मञिनि था आदमी, से न मञां मां,
सचू आहियां आउं, जो ब्रान्हो बिए जो न थियां.

५२

जे सारो पुछां लोकु, तां गूंदर वारो न लहां,
हहिड़ो भलो थोकु, कंहिं भाग़ भराइयो.

५३

जेकी आहे हिति, हुति भी उहोई अथई,
भञु इहा ई भिति, तां तूं उहोई आहीं.

५४

जेकी हले थो जंहिं सां, सो करि पैदा पाण,
सूरत सां सुञाणु, मुंहुं करे मूरत खे.

५५

जोई नापैदा हुयड़ो, सोई थियो वरी पैदा,
जोई पैदा असुल खां हुयड़ो, सोई थियो नापैदा,
पैदा सो नापैदा थिए, तॾहिं हकु होयदा,
पैदा जी कल तॾहिं पवंदी, नापैदा थी वेंदा.

५६

जोगिया वेसु ढके, लाथुमि सभु लिबासु,
पट पटीहर बाफ़ता, निपटु कयमि नासु,
कयुमि नींहं निरासु, दुनिया जे सभ दूद खां.

५७

जोॻी आहिनि जाल, पर लाहूती लॾे विया,
ही मिणि मिणि कनि मणियनि सें, हू खड़ा मथे ख़ियाल,
से लांगोटिया लाल, भेनरि ! भाॻि मिड़नि मूं.

५८

जोॻी आहिनि जे, गोशु गंगा ॾे तनि जो,
ाहिनि कोड़िया कात जा, कन कट कापड़ के,
सिरु संबाहिनि से, जनीं नातो नाथ सां.

५९

जोॻी जाल ॾिठामि, पर को को लभे कापड़ी,
ही वेही वसतुनि में विया, हू न लोक लड़ियामि,
तनीं काणि थियामि, हैड़ ! हैड़ ! हहिड़ा हाल.

६०

ज़ाति सिफ़ाति हिकाई आहे, भोल न विझीं भोले,
सोई अंदरि सोई ॿाहिरि, सोई तुंहिंजे चोले,

तो में मूं में हुन में हरि जा, सचू सचु थो ॿोले.

६१

ज़ाहिरु ककरु आउं, मींहुं तोई बातिन में,
पाणु उहोई भांइ, जंहिं वसिए सां वस थिए.

६२

ॾिसनि ऐं रुअनि, इहा आदत अखियुनि खे,
से सरहियूं शाल हुअनि, जिनि खे असर ओहीरनि जा.

६३

ॾुखियूं पुछनि ॾुख, सुखियूं पुछनि सुखड़ा,
हिन खे हासुलु जो थियो, जेकी मंझां जुख,
नींहं वारनि जे नुख, लग़ी लोरीअ वारिएं.

६४

ॾेहु ॾुखीअ जो ॾोरि, रहबर ! रसु रुञ में,
मूं वेचारीअ मूरि, ही थरु थेलियो न थिए.

६५

तूं समो सरताजु, आउं मे मुहाणी आहियां,
लाधुइ पंहिंजे लुत्फ़ सां, असां खां इहतियाजु,

मे सन्दो मुहिताजु, कींझर सारो कयो.

६६

तूं समो सुलतानु, आउं मे मुहाणी आहियां,
जे तूं महिरबानु, त कहिड़ी काणि कुड़िम जी.

६७

दिले सां हुई दिलि, दादुलीअ दिलेर जी,

उनहीअ डिनुसि ओचिते, जल अंदरि अजलु,
कल न हुई कुंभार खे, त ख़ाकीअ मंझि ख़ललु,
मिटीअ जो महलु, पुर्ज़ा पाणीअ में थियो.

६८

देवी रखी दिलि में, जंहिं मनु कयो मंदरु,
अंदरि ई अंदरि, पूजारी सो पुरि थियो.

६९

धूणीअ मंझि धियानु, आहे आधूतनि जो,
गुमु थी गुरगम गोदिड़िया, कनि गिरोड़ी गियानु,
असुल खां इश्नानु, गंगा जमुना तिनि जो.

७०

नाजुक सन्दो नींहु, आहे इएं जेडियूं !
पंहिजे राए रेज करे, जिअं सांवण मींहुं,
राजु रखे थो रींहु, मन में महबूबीअ जो.

७१

नाहे वेचारीअ वसु, जो करे साठ पई रहे,
कड़हीं छनि न छडियोमि, संदो गोरनि गसु,
डूंगर मंझां डसु, पवंदुमि होत पुन्हूअ जो.

७२

नूरीअ कयो नाजु, रीझाए अजु राइ खे,
नितु नितु जामु नियाजु, अचियो उनहीअ जो करे.

७३

पने में पैग़ाम, लिखी मुका सजुणें,
से न समुझनि आम, जे आहिनि मंझि इशारतें.

७४

पंधु अजाइबु पिरींअ जो, 'मां' सां कीन हले,
साई चाह चले, जंहिं 'मां' छड़ी विच में.

७५

पंहिंजी ज़ाति लिकाए, कीअं ब्री ज़ाति सड़ायां,
ज़ाहिरु करियां ज़ाति खे, ताही बुतु भञायां,
ज़ाहिरु बातिन हिकिड़ो, आउं ता हुकुम हलायां,
सचू सारो सचु थियो, हीअ हुकुमत चलायां.

७६

पाण पढ़हिजि, पाण बिहिजि, पाण ई सजिदो कजि,
ब्रोलु न बियो भांइजि, काफ़रु मोमिनु हिकु थियो.

७७

पाण विञाए पाणु, ग़ोले लहिजि पाण खे,
पाण मंझां ई पाण खे, पवंदी ज़ाण सुजाणु,
मखणु अखरु हिकिड़ो, सोई खीरु संभाणु,
इहो अथी उहञाणु, ग़ुहिला इनहीअ ग़ालहि जो.

७८

पांधोड़ियूं पहाड़ जूं, रिणें कोहि रहनि,
लोचे से लहनि, जिनि सचू ब्रुधो संदिरो.

७९

पिरियां संदे पार हे, पंधु अजाइबु आहि,
घोरे सिरु घुमाइ, मथे दरि दोस जे

८०

पिरीअं संदी जूइ मां, चुमां पथर मूं,

तंहिं में भी आं तूं, नज़रि नाहे को ॿियो.

८१

पिरेमा खणी जो पड़हे, गुरमुख जी ॿाणी,
वसाए वस करे, पलर जो पाणी,
बूंदूं वसनि बिरह जूं, छिमि छिमि मां छाणी,
सचल थियो साणी, साहिबु सारंग आए.

८२

पुठीअ ॼञ न ॼुलु, मंझि तमाशे न पवीं,
घोटु करे तूं पाणखे, करि हंगामो हुलु,
सतिगुर सचु सुणायो, सचल कुरबूं कुलु,
भोल न ॿिए कंहिं भुलु, वठिजि हालु हलाज जो.

८३

'फुन्हूं ! फुन्हूं' थी करियां, आउं पुणि फुन्हूं पाण,
अदियूं ! थियसि अॼाण, जो कीन परूड़ियुमि पाण खे.

८४

पूॼारी जे पारखू, महादेवु तिनि मनि,
गंगा गुमु रहनि, ॿुधनि ॾिसनि कीन की.

८५

पूरब पंध आइ, कड़हिं कापड़ियुनि खे,
जिति माण्हुनि मेड़ाको थिए, सा जूठी जोगियुनि जाइ,
सचा सच सवाइ, सौदो कनि न को बियो.

८६

पेर मुंह नीरा, पाणी पवंदा जिनि हुवा,
ॿुंधियो वतनि सिर ते, से चाह मंझां चीरा,

माणिक मोती मुंहं ते, हथें तिनि हीरा,
कात सभेई कीरा, सुघड़ समे ज़ाम जे.

८७

बारी इश्क़ बलोच जो, ग़ोई राहत,
सारियां सा साइत, हेकांदि हुयड़सि होत सां.

८८

भेनरु ! ना भांयो, त बूंदुनि कई आ बसि,
इझो ड़े आयो, वरी वेतरि वितरो.

८९

मचु मचायो मन में, ब़ाफ न बुहरि विझनि,
वतनि वेग़ाणा विरह में, नेणें निंड न कनि,
सुड़िका सेई सोज़ जा, भिनीअ राति भरिनि,
पंहिंजे परि में पाण खे, था परितऊं पचाइनि,
सिखि यो सामियड़नि, इश्क़ इहो सभु आईअ खां.

९०

मज़हबनि मुल्क में माण्हू मुंझाया,
शेख़ी पीरी बुज़ुर्गी, बेहदि भुलाया,
के निमाज़ूं निविड़ी पढ़हनि, किनि मंदर वसाया,
ओड़ो कीन आया, अक़ुल वारा इश्क़ खे.

९१

मरण कनां ते अगे मुआ, 'मां' खे कीन मञिनि,
दुश्मन दोस्त हिकु कयो, गोदिड़िया गड्जिनि,
वहिदत जे वादीअ में, दानह दमु धरिनि,
'तूं, मां' विञाए विच मां, पंहिंजो पाणु पसनि,

हादी मुरीदु हिकु थियो, तफ़ावतु न कनि,
नाएं डिसु नेणनि, सूरत मूरत हिकु थी.

९२

मरदु थी तूं मेंधिरा ! सोढा सडु सुञाणु,
लोहि लजाईं पाणु, नाहकु वेठो नींहं में.

९३

मस्तु रही मैख़ाने अंदरि, मंगि वती सीं मस्ती,
मस्ती सा ना सिरु सुञाणे, तंहिंजो कमु कम्बख़्ती,
ब्रियूं सभु कूड़ियूं ग़ाल्हियूं, सचा सचू इश्कु अलस्ती.

९४

९५

मारुनि जूं तारूं, तंवारीनि मूं तनि,
बारे डियां ब्रनि, सालूं तुंहिंजूं सूमिरा.

९६

मेंहुनि जे मथां, घोरियो वञां घोट जे,
डुहां डुहनि में वञी, विर्चांअ जे विचां,
लाहियां साहड़ जे वञी, अछनि सां उञां,
लुछां कीन कुछां, मिलण लइ मेहार जे.

९७

मुहबत जे मैदान मां, लाहूती लंघनि,
आदेसी अरमान में, घूमाटिया घुमनि,
लंघे हलिया हाल खां, नकी क़ालु कहनि,
ब्राफ न ब्रहरि विझनि, मचु मचायो मन में.

९८

मुहाणीअ मरकु, तमाची तुरेलु थियो,
मथे मे गुलाब जो, थो ओते अतुरु अरकु,
कयाईं कोन फ़रकु, पाणु गडियाईं गांदिरें.

९९

मूं में आहीं तूं, तो में आहियां मां,
बिजिली बादल सां, आहे जिअं सुपिरीं.

१००

मेहर खे महिर का, पवंदी मन मणी,
सुहिणीअ जा सुणी, सड्डिड़ा विचां सीर जे.

१०१

मोटणु मरकु न तुंहिंजो, सोढा सियाणा,
वसाइजि, वलहीअ जा, भींग इहे भाणा,
परे करे पाणा, मूंखे मारियुइ मेंधिरा.

१०२

राणा रंजु न करि, माफ़ी मूमलि ड्डे खणी,
सोढा तो सबुरु, ब्बहुगुण ! ब्बोड़े मारियो.

१०३

रूअण खां न रहनि, आयलि ! इहे अखियूं,
सभ कंहिं वेल वहनि, अथनि असर ओंहीरनि जा.

१०४

रोहनि अंदरि रोझिड़ियूं, कयूं ड्डुखियूं ड्डोलावनि,
सचल में सावनि, सुखियूं कयूं सुखदेस में.

१०५

लंघिया लुंडाणो, अऊं काकि छड़ियाऊं पोइ ते,
ताते वञी रसिया, जाते मूमल न राणो,
नका मसजिद तकियो, उति नको टिकाणो,
ताते थियुनि थाणो, जिते 'मूं, तूं' नाहि का.

१०६

वक़्तु इहा थी वेल, दोई दूरि करण जी,
कदु मज़ाहब मन मां, साझुरु साणु सवेल,
हिन्दू मोमिन सां मिली, मुहबत जा करि मेल,
मतां थिए अवेल, ओलहि सिज न उलहे.

१०७

वाति करे वाई, अजु पिणु कांग क़रीब जो,
की जो चयाईं चुहिंब सें, तंहिं लुछ डाढी लाई,
अंदर खे आई जुणु, ज़र जेरे सन्दी.

१०८

विजुनि विख वधाई, वसण वसु कयो,
वजुण वाजा वाह कया, पाउर पोइ पलटियो,
सचा साओ थियो, सभुको सारंग आए.

१०९

विया हिति वेही, अञा काल्ह काल्हूणें कापड़ी,
आयलि ! आधूतनि जी, ग़ाल्हि करियां केही,
सचल सारे सिक मां, गारोड़ी गेही,
पूरब में पेही, वञी वासिलु थिया विसाल खे.

११०

विर्लो वेराग़ी, गियानी ड्रिठुमि गोदिड़ियो,
भुलिया ड्रिठमि भीर में, भोग़ी ऐं भाग़ी,
तालिबु तियाग़ी, लखनि में को हिकिड़ो.

१११

शाल न विसिरीं होत ! ब्रियो सभु मूं विसिरे,
मूंखे ताईं मौत, हुएं अखिड़ियुनि में.

११२

शाही हुयुमि शानु, दिलिबर ! पंहिंजे देस में,
सचल आयुसि ओचिते, खणी सूरनि जो सामानु,
छा मंझारूं छा थी आयुसि, इहो अधमि अरमानु,
हैरत में हैरानु, मूंखे हीर हिते कयो.

११३

संघार ने ते सूमिरा ! बर सिरि हीअ बणी,
आदत जुल्म ज़ोर जी, वेई हमीर बणी,
थियसि घुर घणी, रइयत जे रंजाइण जी.

११४

सचल सारो सचु थियो, मंझा कसिरत कुलु,
अलिफ़ मां आदमु थियो, करे हंगामो हुलु,
हिन्दू मोमिनु हिकु थियो, भोल न बिए भुलु,
थिजि गुलाबी गुलु, मरु मारीनी मन्सूर जां.

११५

सचू रखु समाउ, थो माण्हू रोझनि सां गर्डी !
हाणे सबुर मंझि थी आउ, कमाई पूरी करे.

११६

सचू साईं हेकिड़ो, नाहे शकु गुमानु,
पंहिंजो तमाशो पाण ॾिसे थो, सूरत मंझि सुल्तानु,
काथे पड़्हे पोथियूं, काथे पड़्हे कुरानु,
किथे ईसा, किथे अहमदु, काथे हनूमानु,
हैरत में हैरानु, पंहिंजो विधईं पाण खे.

११७

सतिगुर सचु सुणायो, सचा तूं सुल्तानु,
तुंहिंजो शाही शानु, ॿान्हप ॿोली नाहिं का.

११८

सदिक़े साहु करियां, हिन कांगे तां काकयूं,
जे ॾिए सनीहा सॼणां, से सांभे साह धरियां,
भली पेर भरियां, उन्हीअ वेल ओॾहीं.

११९

सरतियूं ! सिक सबील, अंदर मंझि अजीब जी,
रातो ॾींहां थी करियां, ज़ारियूं मंझा ज़ील,
हिन कमीनीअ जी क़ील, का हुई होतियाणनि में.

१२०

साकी ! ॾिजांइ बाक़ी, त बक़ा बिरिह में थियां,
फ़ानी फ़िराक़ी, रही रहंदा केतिरो.

१२१

साक़ी ! ॾेजि सुठी, सुरक सुराहीअ मां कढी,
पिक पियारिजि पारखू ! मुहबत जी मिठी,
पियण सां पुठी, पाण ॾियां जिअं पाण खे.

१२२

सारंग सारी राति, रिणनि मथे रेज कया,
पखिनि परड़ा सोइया, पिरिह फुटी पिरभाति,
पटनि ते पधिरा थिया, गुलफुल भातों भाति,
वाई सभकंहिं वाति, सचल सारंग साठ जी.

१२३

सारो लोकु सुखनि, पोइ रहायो पिरींअ खूं,
ड्डिसो वाह ! ड्डुखनि, होतु विहारियो हंज में.

१२४

सुर संवारियो सिर खे, सिर संवारियो सुरु,
जो आहे सोरठि वरु, सो ड्डियण खां किथे ड्डरे !

१२५

सूरत मूरत हिकु अथी, नाएं ड्डिसु नेणनि,
अखियूं कन ज़िबान ही, विचां जिअं वञनि,
टपि टपि लाए टोबा उहे, टोबीअ मंझि टुबनि,
पाणीअ जे पाकाईअ सां, पाणही पाकु थियनि,
अठ ई पहर अछ में, आशिक़ गुमु रहनि,
सालिक समुझाइनि, मामनि सां माण्हुनि खे.

१२६

सूर्य सारो अब्र जो, लोठियुनि कीन लधो,
अंधे साणु अंधो, ब्बुई पिया खड में.

१२७

सोढल सिकाई, आउं पिणु अदियूं आहियां,
रातो ड्डींहा मुईअ खे, वाति इहा वाई,

कंदा उहा काई, जो कारंहि लहंदी काकि तां.

१२८

हणी हणी हीच थी, हथ थियसि हीणा,
सिपारियाईं सचू चवे, लाखे खे लीणा,
बुड़ंदीअ ब्रीणा, साहड़ कया सीर में.

१२९

हथु न मिले हथ खे, सालिम सेणा सेणाहीनि,
धधिका धुम दरियाह जा, कपर पिया कपीनि,
मौज पसी महराण जी, मतियूं थियूं मुंझनि,
पिरींअ खे किअं पुछनि, हथिड़ा पथड़ि होत खे.

१३०

हदें वञे हरिको, लाहद वञे पीरु,
सचू सो फ़क़ीरु, जो हद लाहद लंघे वञे.

१३१

हिंअड़ो छड़े हुति, थियूं खानियूं रोझियूं,
ड़ुखिया ओसर ड़ींहड़ा, सचल घारीनि हिति,
अठ ई पहर चिति, वतनु तिनि न विसिरे.

१३२

हिकु वसणु ब्रियो वञणु, टियों लही पियो सीउ,
झोरे विधईं झूपियूं, छन विधाईं छीउ,
हालु जिनीं जो हीउ, तिनि परवर ! रखु पनाह में.

१३३

हुते केरु हुयासि, आयुसि हिते केरु थी,
हुतिड़े नालो ब्रियो हुयो, नांउ नएं हिति थियासि,

आशिकु थी आयासि, न त हुयुसु माशूक़ी माम में.

१३४

हुते केरु हुयासि, हिति आहियां केरु,
सालिमु इहो सैरु, सचल सिक करायो.

१३५

हुयसि माशूक़ी माम में, आशिकु थी आयासि,
अचणु न हो हिति मुंहिंजो, ख़्वाहिश हिक खंयासि,
हुसन संदी हवस हुई, जंहिं हिति हेरियासि,
विचां आउं वियासि, सचू सागियो सचु थियो.

सचल-कोश

अ

अगाहू - अगिते

अघाइणु - स्वीकारु करणु

अछ - अछाणि; वहदत

अछा - खीरु ऐं डुधु

अजलु - मौतु

अज़ली - शुरूअ खां

अनालहकु - मां ख़ुदा आहियां

अबरु - ककरु, बादलु

अरतो - लालु, रताओं

अरवाहु - रूहु, साहु, दमु

अलाफु - अल्लहु, ईश्वरु

अलसती - ख़ुदाई

अवसर - सोक, बरसाति न
पवण जी हालति

अवाघु - ऊन्हो, गहिरो

अविद्या - अग्यानु

अहंजो - डुखियो

अंदोहु - डुखु, ग़मु.

आ

आखरो - रिजायलु ऐं आठरायलु
गीहु; गजी, थरु

आखो - बुधायो

आगमु - झुड़ु

आयलि - अमड़ि

आसरवंदु - आसाऊ, आसाइतो

इ

इस्बातु - तस्दीक़, ईश्वर जे हुजण
जो सबूतु, साबिती

उ

उकाणी - फिटी, टुटी (दोस्ती)

उकंड - उकीर

उठी - मींहुं पवण ते

उतहीं - उते

उमेट - पलट, लाड़ो

उसाट - उञ, प्यास

उहञाणु - निशानु, डसु पतो

ओ

ओखु - औखो, डुखियो

ओगाइणु - सुकणु, ख़ुश्कु थियणु

ओट - रंडक, रुकावट

ओटि - भञु, टोड़ि

ओडिड़ो - वेझो

ओतड़ाअ – अणांगे तड़ मां
ओलाक – चिंता, गुणिती
ओहीरो – मींहं जो वसकारो

क

कोरिया – कारंहिं कया
कनां – खां
कपरु – किनारो
कपारु – निरड़ु
कर – ख़बर, ज्ञाण
करमु – रहमु, महिर
कलवंतु – कलाकारु
कशालो – कष्ट, ड्राखिड़ो
काकी – अदी
काणि – कमी; परिवाह
कापड़ी – जोगी
काफु – पहाड़ु, परबतु
कामिलु – – परिपूरनु, पहुतलु
काहिलु – सुस्तु; लाचारु
कीम – कीन, न
कुसणु – क़तलु थियणु
कू – खे
केही – कहिड़ी
केहूं – कहिड़ियूं
कोटु – क़िलो
कोड़े – तमामु घणा
कोड़ूं – शौंक़ मां, कोड मां
कोहु – छा लाइ

क़

क़ाली – बहसु कंदड़ु
क़ालु – ज़ुमिलो, गुफ़्तगू

ख

खयो – चरियो
खरी – दुरुस्तु, बराबर
खाणनि – जलणि

ख़

ख़ललु – रुकावट; लुचाई
ख़लासी – छोटिकारो
ख़ाकी – मिटी
ख़ाम – कमिज़ोरु, कचो, ऐबदारु
ख़ासी – उत्तमु, आलॉ
ख़ुदी – आपो
ख़ूइ – आदत; सुभाउ

ग

गदाई – बीख, फ़क़ीरी
गदागर – फ़क़ीरु, ग़रीबु
गारूड़ी – नांग जे ड्रंग ते मंतरु पढ़हंदड़ु

गुड़ी – लग़ड़ु
गुरगम – गुरूअ जो डिनलु ग्यानु
गुहरु – गूहरु, मोती, गोहरु
गूया – चवंदड़ु
गूंदरु – ग़मु
गोइ – बाल
गोदड़िया – गोदिड़ी पहिरींदड़ु
गोरनि – उठनि
गोशु – कनु
गोशो – पासो, कुंड

ग़

गुच ग़ाड़णु – हंजूं हारणु,
डाढो डुखु थियणु
ग़हलो – अणज़ाणु; बेवक़ूफ़ु
ग़ाराणो – झोरी
ग़ारी – कपिड़े टुकरु
ग़ाह –सख़्तु पोर्हियो,
संगनि खे कुटे अनाज
जा दाणा अलगि
करण जो कमु
ग़िधी – ख़रीद कई.

घ

घाउ – ज़ख़मु
घारी – जुदाई
घेड़ – नदीअ तर्फ़ि झुकाअ
वारो रस्तो

च

चड़ा – मेंहिं खे ब़धल घिंड
चाकु – घाउ, जख़मु
चूहाड़ियूं – चींहूं चीहूं, ज़राज़रा
चूंगारणु – वज़णु, आवाज़ु करणु
चेटकु – जादू; मस्ती
चेरा – मथे ते ब़धण जो
ग़ाड़हो कपिड़ो

छ

छनि – छनो, घरु
छनु, खिनु, साइत, क्षण
छपरु – पहाड़ु, जबलु
छंद – मिखिर, नमूने सां
छीउ – घारो, नुक़्सानु

ज

जज़ा – कीतो, बदिलो
जतनु –कोशिश
जरु – जलु
जाई – सचुपचु
जाकी – जां की, जेसिताईं

जाजकु – मंगतो, मङ्गहारु
जाड़ – जुठि, ज़बरदस्ती
जुख – दर्दु, सोज़ु
जुगाए – घुरिजे
जुंगु – बहादुरु
जुलणु – हलणु
जूइ – आस्थानु, जाइ
जूया – ग़ोल्हींदड़
जेकस – जेकर, शायदि
जेही तेही – जहिड़ी तहिड़ी
जोड़ – ठाह

झ

झटिको – लोॾो
झणि – लसी
झाट – तकिड़ो
झाम – मींहं जी टिमिटिमि
झिजणु – अंदर में ग़रणु, कमिज़ोरु थियणु
झुड़ु झोई – झुड़ु करे
झूपियूं – झूपड़ियूं
झोक – माल जे विहारण जी जाइ, मन्ज़ल
झोरी – ग़ाराणो

ट

टाम – टारी

ठ

ठाहु – बणति, जोड़ु

ड

डभु – दवा

ॾ

ॾझो – आथतु, आसिरो
ॾधियूं – ॾुखोयल
ॾसि – ब़ुधाइ
ॾाह – ब़ान्ही
ॾीलु – शरीरु
ॾुहा – चाड़ी
ॾुहिली – ॾुखोयल
ॾूंगरु – पहाड़ु, जबलु
ॾोरणु – ग़ोल्हणु

ढ

ढोलिया – लाॾलो, प्यारो

त

तक – निगाह, नज़र, मुनासिब मोक़ो

तक – टुकर टुकर, ख़लासु

तक तोर – कथ, सोचु वीचारु

तक तोरणु – ओसीड़ो करणु

तम – मूरो, ख़तमु

तलाफ़ी – पूराओ

तरसु – दया, रहमु

तस्बीह – माल्हा

ताकी – काठ जी पटी

तार – तंदु; यादिगीरी

तारीकी – ऊंदहि, ऊंदाही

तारु – ऊन्हो, टिमटारु

तांघो – उछातिरो

तुलु – बराबर, तुल्य

तेही – तहिड़ी

तोई – तुंहिंजी

थ

थकी – थकल, कमिज़ोरु

थरु – रिणु पट्ट, रेगिस्तानु

थाक थियणु – ठिकाणो करणु

थोक – चीज़; मणियो

द

दमु हणणु – दावॊं करणु

दस्तु – हथु

दादलो – लाडलो

दामु – ज़ारु; क़ैदु

दीदां – नज़रूं

दुतारणु – हिर्खाइणु, भंभुलाइणु

दूदु – दूंहों

दोई – बियाई

दोसि – दोस्तु

ध

धरणु – रखणु

धूणी – दूंहीं

न

नफ़ी – नेस्ती, नाबूदी

नाकुस – घटि, कसो

नाख़ैर – बदाई

नाल – साणु, गडु

निङरिया – निकिता

निझुरो – झूपिड़ी

निधरि – लाचारु

निपटु – बिनह

नियाॼु – नम्रता, मिन्थ

नेही – पिरी, पिरीं

प

पखो – कखाओं घरु

पथर – पथरिणी, बिस्तिरो, विहाणो

पयामु – पैग़ामु

परि – रीति

पलणु – रोकणु

पहोड़ा – काठ जी कोॾरि

पाणां – पाण खां

पाणू वाणी – पाणेही

पिॾु – रांदि जो मैदानु

पिरु – प्रीतम

पुॼाणा – पोइ

पुरिया – हलिया

पुसी – किरड़ वण जो फलु

पोथीदारु – पोथी पड़हंदॾु

फ

फारां – सौण, टोणा फीणा

फुटणु – खुली चीरिजी पवणु

फोटो – बुदबुदो, फूकिणो

फोली – ॻोल्ही

ब

बक़ा – क़ाइमु

बनि – बनु

बरहकु – सचो

बस्मो – भभूति, रख

बारान – मींहुं

बिलोर – जबल, पहाड़

बेखु – वेसु

बेनंगु – नंग खां सवाइ

ॿ

ॿुड़ि – अफ़सोस

ॿंधाणानि – ॿंधननि

ॿाझूं – सवाइ

ॿाड़ – सोॼु

ॿेली – साथी, हमराहु

भ

भागी – ऐश माणींदॾु

भाणु – जाइ, मकानु, माॻु

भाणो – माॻु, आस्थानु

भींग – सुञो, उजाड़ु

भेलो – घटि पकलु

भोलु – गुमानु, शकु

भोलो – चुक, ग़लतफ़हमी

म

मच – भंभट
मणिया – माल्हा जा दाणा; ग़ुहिणा
मणी – ड़ाहुं, तरफ़ि
मथेरु – अग़वानु
मरकु – फ़कुरु, शानु, वड़ाई
मरु – भली
मश्क – खथूरी, कस्तूरी
माड़ – भलाई
मादरि – अमड़ि
मान – मन
माम – गुझारत, रम्ज़, इशारो
मायो – सतु, सारु; पूंजी
माही – चंड जहिड़ो सुहिणो, प्रीतमु
मिणमिण करणु– नाम/मंत्र जो जपु करणु
मिल्क – मिल्कियत
मीरासी – गवैयो
मुंजणु – मोकिलणु
मुन्करु – इन्कारी
मुफ़्ती – फ़तवा डींदड़ु
मुहंदान्र अग़ियां
मूर – बिनह, हरगिज़
मे – मुहाणी, माझियाणी
मेरु – मेराणि
मौज – लहिर, छोली

र

रबाब – सुरंदो
रफ़ीकु – साथी
रसणु – पहुचणु
रावलु – दोस्तु, पिरीं
रासत – साज़ो पासो
रिंदी –बेख़ुदी; बेपरिवाही
रीअ – खां सवाइ
रींहं – रम्ज़
रूइ – मुंहुं
रोहु – पहाड़ु

ल

लकु – लंघु, पहाड़ जो रस्तो
लग़ु – जे वास्ते, लाइ
लाकूं – खां वठी
लाम – टारी
लाहिदु – जिते का हद न हुजे
लाहूती – सूफ़ियुनि जे आख़रीन मंज़िल वारा जोग़ी
लांगोटिया – लांगटी पहिरींदड़ जोग़ी
लोइ – जग़ह; संसारु
लाईअड़ा – लोई पहिरींदड़
लोच – ग़ोल्हा

लोठियो – बेहया शख़्सु

व

वटूं – वटां
वड़कणु – हेड्डांहुं होड्डांहुं अचणु वञणु
वरनाइणु – ध्यानु ड्डियणु, बुधणु
वरु – घोटु, मुड़सु
वरेतियूं – वर/घोट वारियूं
वलरु – पखियुनि जो मेड़ु
वलहो – पती, घोटु
वहीणी – वसि, मुहताजु
वाही – नाले
विझरो – घणो, सरसु
विलही – ठल्ही, सुञी, मिस्कीन
विंदरु – हिक पहाड़ जो नालो
वेड़हा – हवेलीअ जो अड़णु
वेसलो – वांदो
वेंझारु – हीरनि मोतियुनि में सोराख़ कंदड़ु
वोड़णु – ग़ोल्हणु
वोड़ाइणु – ग़ोल्हाइणु

श

शमलो – पग
शिरु – शरारत

स

सगु – कुतो
सङु – रिश्तो नातो
सतारी – ऐब ढकणु; महिर, ब्राझ
सफरो – काराइतो, फ़ाइदेमंदु
समाउ – सुधि, ज़ाण
सरचाइणु – पर्चाइणु
सरणु – गुज़ारो करणु
सरवरु – मालिकु
साउ – सवादु, ज़ाइक़ो
साख – शाहिदी
साम – पनाह, हिफ़ाज़त
सामी – जोगी
सारां – ख़बरूं, संभारूं
सारी – यादि
साल – शाल
साव – सावक
सांगो – चिंता, ग़णिती, फ़िकिरु
सिरु – राज़ु, गुझु
सीणाह – पख़ाल, मुश्क
सुख़न – वचन
सुघड़ु – गुणवानु, नेकु
सुधीरु – सामति/होश में
सुरक – चुकी, ढुकिड़ी
सुर्ति – सुजणी

संदी – जी, जहिड़ी, वारी
संहुं – सौगंध, क़समु

ह

हड़ि – हरगिज़, बिनह
हमीर – अमीरु (उमर सूमिरो)
हवस – ख़्वाहिश, लालचि
हादी – हिदायत ड्रींदड़ु, मुर्शिदु
हारी – हारायलु, कंबख़्तु
हिजिरु – जुदाई, विछोड़ो
हिताउ – हितां
हेकार – हिकु दफ़ो
होरु – फ़िकिरु, गुणिती, डपु
होतु – प्रीतमु

■



को कीअं चवे को कीअं चवे, आउं जो ई आहियां सोई आहियां.

को मोमिनु चवे को काफ़िरु चवे, को जाहिलु नालो ज़ाहिरु चवे,
को साहिरु चवे को शाइरु चवे, आउं जोई आहियां सोई आहियां.

को पंथु चवे को संतु चवे, को बाग़ बहार बसन्तु चवे,
को मीरासी कलवंतु चवे, आउं जोई आहियां सोई आहियां.

को मुलां चवे को क़ाज़ी चवे, को मुफ़्ती चवे को ग़ाज़ी चवे,
को रोज़हदारु निमाज़ी चवे, आउं जोई आहियां सोई आहियां.

को रदि चवे को बदि चवे, को बे दीनी बेहदि चवे,
को मशरिकु भी मुलहदि चवे, आउं जोई आहियां सोई आहियां.

को सूरत में इन्सानु चवे, को शिर भरियो शैतानु चवे,
को बुज़ुरगु को मस्तानु चवे, आउं जोई आहियां सोई आहियां.

को सुस्तु चवे कोई सरमस्तु चवे, को राह ते दीन दुरुस्तु चवे,
को आशिकु रोज़ अलस्तु चवे, आउं जोई आहियां सोई आहियां.

को ज़ेरि ज़बर ज़ंदीकु चवे, को राहनुमाउ रफ़ीकु चवे,
को ग़रक़ीअ मंझि अमीकु चवे, आउं जोई आहियां सोई आहियां.

को रंगु कोई बेरंगु चवे, को मस्तौमस्तु मलंगु चवे,
को नंगी को बे नंगु चवे, आउं जोई आहियां सोई आहियां.

को हाली चवे को क़ाली चवे, को ख़ास अलख़ास ख़ियाली चवे.
को अज़ली मस्तु मवाली चवे, आउं जोई आहियां सोई आहियां.

को शकु चवे नाहकु चवे, को बाति इहा बरहकु चवे,
मूंखे मुरशिदु अब्दअलहकु चवे, आउं जो ई आहियां सो ई आहियां.

को ख़ास चवे को आमु चवे, को पुख़्तो चवे को ख़ामु चवे,
को सचू सचो नामु चवे, आउं जोई आहियां सोई आहियां.